

अंतर्राष्ट्रीय

लोपमुद्रा राउत मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2016 में सेकंड रनर-अप रही

भारत की लोपमुद्रा राउत एक्वाडोर में 25 सितंबर 2016 को आयोजित हुए मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2016 में सेकंड रनर-अप रही हैं। फिलीपींस की जेसलीन सैंटोस ने मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2016 का टाइटल अपने नाम किया।

- चार महाद्वीपों अमेरिका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका से 32 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था।

भारत ने किया सार्क का बहिष्कार, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी साथ

19वें सार्क समिट में भारत के शिरकत नहीं करने की विदेश मंत्रालय की औपचारिक घोषणा के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान भी 9-10 नवंबर में होने वाली इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला कर चुके हैं।

- सार्क के संविधान के मुताबिक अगर कोई भी सदस्य देश सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेता तो सम्मेलन स्वतः ही या तो रद्द हो जाएगा या फिर उसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी।
- सार्क की वर्तमान अध्यक्षता नेपाल के पास है।

विश्व रेबीज दिवस 28 सितम्बर

विश्व रेबीज दिवस 28 सितम्बर को मनाया गया।

- इस वर्ष इसका विषय "एजुकेट, वेक्सिनेट, एलिमिनेट" है।
- यह रेबीज के प्रसार को नियंत्रित करने, रोकथाम और जागरूकता प्रसारित करने के प्रति समर्पित दिवस है।

भारतीय और रूसी सेना ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास

रूस के व्लादिवोस्तोक में भारत और रूस ने अपना आठवां संयुक्त सैन्य अभ्यास 'इन्द्र-2016' शुरू किया।

- उसीरियस्क जिले में हो रहे आठवें सैन्य अभ्यास इन्द्र-2016 का मुख्य ध्यान संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों तथा जंगल वाले क्षेत्रों में आतंकवाद-विरोधी अभियान पर रहेगा।

भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट में 39 वें स्थान पर

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट (GCR) 2016-2017 जारी कर दी है। रिपोर्ट में 138 अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिस्पर्धा परिदृश्य का आकलन है।


- भारत GCI रिपोर्ट में 16 स्थानों की छलांग लगाते हुए 39 वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014-15 की रिपोर्ट में 71 वीं रैंक की तुलना में 2015-16 GCI रिपोर्ट में भारत 55 वें स्थान पर था।
- रैंकिंग में शीर्ष 10 देश क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, जापान, हांगकांग (एसएआर), और फिनलैंड रहे।

पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पास हुआ 'हिंदू मैरिज बिल'

पाकिस्तान की संसद ने ऐतिहासिक हिंदू विवाह कानून को पारित कर दिया है। इस कानून के बन जाने के बाद देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपने विवाह का पंजीकरण कराने का अधिकार होगा।

- पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार वहां हिंदू महिलाओं को अपनी शादी को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं होता था जिसके कारण उन्हें अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और बलात्कार का शिकार होना पड़ता था।
- गौरतलब है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1.6 फीसदी है लेकिन बंटवारे के बाद से अब तक वहां हिंदुओं की शादी रजिस्टर्ड नहीं होती थी।

विश्व पर्यटन दिवस 2016 27 सितम्बर



पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितम्बर को आयोजित किया जाता है।

- इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय 'सबके लिए पर्यटन : सार्वभौमिक पहुंच को प्रोत्साहन' रहा।
- विश्व पर्यटन दिवस समारोह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 1980 में शुरू किया गया। यह प्रत्येक वर्ष 27 सितम्बर को आयोजित किया जाता है।

विश्व समुद्रीय दिवस मनाया गया

विश्व भर में 29 सितंबर 2016 को विश्व समुद्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस का विषय था, नौका परिवहन: विश्व के लिए अपरिहार्य।

- यह विषय नौकापरिवहन तथा विश्व समुदाय के बीच कड़ी को दर्शाता है तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आईएमओ) के महत्व पर भी प्रकाश डालता है।

प्रियंका चोपड़ा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टीवी ऐक्ट्रेस की सूची में

फोर्ब्स ने 'क्वांटिको' में अभिनय के बाद प्रियंका चोपड़ा को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टीवी ऐक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल किया है। उन्होंने कुल 11 मिलियन डॉलर की कमाई की।

- अमेरिकी ऐक्ट्रेस सोफिया वेरगारा लगातार पाचवें साल भी पहले स्थान पर कायम हैं। उन्होंने कुल 43 मिलियन डॉलर की कमाई की।

सिडनी में पहला भारतीय संगीत और नृत्य का महोत्सव 'फेस्टिवल ऑफ इंडिया' शुरु

भारत की समृद्ध और विविध संस्कृतियों को प्रदर्शित करने के लक्ष्य के साथ सिडनी ओपेरा हाउस में भारतीय संगीत-नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई।

- केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने 10 सप्ताह चलने वाले भारत समारोह का उद्घाटन किया।
- करीब 2000 लोगों ने दो घंटे तक चले शो में हिस्सा लिया। इस शो में ऑस्ट्रेलियाई कलाकारों के साथ भारतीय संगीत-नृत्य की समृद्ध और विविध संस्कृति की झलक देखने को मिली।
- ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह महोत्सव मेलबर्न, पर्थ, ब्रिसबेन, कैनबरा और एडिलेड शहरों में आयोजित किया जायेगा।

चीन तथा रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 'जॉइंट सी-2016' किया

चीन और रूस के नौसैनिक बलों ने दक्षिण प्रांत के झांगजियांग के ग्वांगदोंग के समुद्र क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया।

- 13 से 19 सितंबर तक चले इस अभ्यास में सेना के मरीन कोर्प यूनिट ने "लाइव-फायर ड्रिल", सी क्रॉसिंग, आइलैंड लैंडिंग अभ्यास तथा आइलैंड डिफेंस अभ्यास का प्रदर्शन किया।
- चीन और रूस की नौसेना ने इस संयुक्त अभ्यास में नौसेना के जहाज, पनडुब्बियां, फिक्स्ड विंग विमान, जहाज जनित हेलीकॉप्टर और साथ ही उभयचर बख्तरबंद उपकरणों का प्रयोग किया।

21 सितम्बर: अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस

अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस विश्वभर में 21 सितम्बर को मनाया गया।

- इसका उद्देश्य विश्व में शांति बनाये रखना तथा युद्ध को खत्म करना है।
- वर्ष 2016 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय है " The Sustainable Development Goals: Building Blocks for Peace."
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में 21 सितम्बर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था।

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 10 पायदान फिसला

वार्षिक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सूची (इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स लिस्ट) में भारत दस पायदान फिसलकर 112वें क्रम पर पहुंच गया है। आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 159 देशों की सूची में भारत को 112वें क्रम पर रखा गया है।

- पड़ोसी देश भूटान, नेपाल व श्रीलंका क्रमशः 78वें, 108वें व 111वें क्रम के साथ सूची में भारत से ऊपर हैं जबकि चीन, बांग्लादेश व पाकिस्तान को सूची में भारत से नीचे स्थान मिला है और उनकी रैंकिंग क्रमशः 113, 121 व 133 है।
- भारत का प्रदर्शन सरकार के आकार को छोड़ अन्य सभी वर्गों में खराब रहा है। सरकार के आकार के हिसाब से भारत विश्व में 8वें स्थान पर है किंतु कानून प्रणाली और संपत्ति के अधिकार, मौद्रिक नीति, वैश्विक व्यापार की आजादी, नियमन आदि वर्गों में इसका प्रदर्शन अत्यंत खराब रहा है और इसे क्रमशः 86वां, 130वां, 144वां व 132वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- सूची में हांगकांग को फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हांगकांग के बाद सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जॉर्जिया, आयरलैंड, मॉरिसस व संयुक्त अरब अमीरात को क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें व नौवें स्थान पर रखा गया है। दसवें स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच टाई हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस: 8 सितम्बर



अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितम्बर को विश्वभर में मनाया गया। इस वर्ष इसकी 50वीं वर्षगांठ है तथा इसकी थीम 'रीडिंग द पास्ट, राइटिंग द फ्यूचर' थी।

- यूनेस्को ने 7 नवंबर 1965 में ये फैसला किया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जायेगा जोकि पहली बार 1966 से मनाना शुरू हुआ।
- व्यक्ति, समाज और समुदाय के लिये साक्षरता के बड़े महत्व को ध्यान दिलाने के लिये पूरे विश्व भर में इसे मनाना शुरू किया गया।

भारत, यूनान में वायु सेवाओं का समझौता

भारत ने द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते के लिए यूनान के साथ समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य घरेलू विमानन कंपनियों को इस यूरोपीय देश में असीमित प्वाइंट आफ कॉल यानी गंतव्य शहरों की अनुमति देना है।

- भारत व यूनान ने 'ओपन स्काई' नीति के तहत वायु सेवा समझौते के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

आसियान शिखर सम्मेलन का समापन

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान) के 28 वें और 29 वें शिखर सम्मेलन का वियनतियाने, लाओस में समापन हुआ। 2016 शिखर सम्मेलन की थीम 'टर्निंग विजन इंटर रियलिटी फोर अ डायनेमिक आसियान मक्यूनिति' थी।

- लाओस के प्रधानमंत्री थोंगलाउन सिसोउलिथ 6 सितंबर 2016 से 8 सितंबर 2016 को आयोजित शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष थे।
- 10 सदस्यीय दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के नेताओं ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये 10 सदस्य हैं- इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई दरुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया।
- आसियान की स्थापना अगस्त, 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस और सिंगापुर थे। ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार बाद में इसके सदस्य बने।

फार्च्यून की सूची में पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूयी दूसरी सबसे पावरफुल महिला

पेप्सिको की सीईओ और चेयरमैन इंदिरा नूयी को फॉर्च्यून की 51 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह मिली है। वह इस सूची में एकमात्र भारतीय मूल की महिला हैं।

- इसमें जनरल मोटर्स की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा चेयरमैन मैरी बारा पहले पायदान पर हैं।
- नूई 2015 में भी इसी पायदान पर थीं जबकि 2014 में वह तीसरी सबसे शक्तिशाली महिला थीं।
- फॉर्च्यून की इस लिस्ट में प्रमुख कंपनियों की 22 सीईओ शामिल हैं।

केन्या के साथ आवास नीति संबंधी समझौते को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन्या के साथ आवास विकास नीति के क्षेत्र में परस्पर सहयोग संबंधी समझौते को मंजूरी प्रदान कर दी।

- इस संबंध में श्री मोदी की गत 11 जुलाई को केन्या की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय आवास नीति, विकास और प्रबंधन (एनएचपीडीएम) के क्षेत्र में समझौता हुआ था।
- एमओयू के अनुसार दोनों देशों को कर्मियों के प्रशिक्षण, एक दूसरे देशों के दौरे, प्रदर्शनियों, सम्मेलन और कार्यशालाओं के माध्यम से आवासों, बस्तियों और घरों से जुड़े मामलों पर सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- इसके अलावा एमओयू को स्लम अपग्रेडेशन बढ़ाने पर केंद्रित किया गया है।

- दोनों देश आवास और अचल संपत्ति डेटा बेस, बाजार के रुझान, निवेश के अवसरों पर जानकारीयां साझा करेंगे और इन क्षेत्रों में विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे।

भारत और अमेरिका की सेना के बीच 'युद्ध अभ्यास' 14 सितंबर से उत्तराखंड में

भारत और अमेरिका की सेना के बीच उस अग्रिमों के बाद पहला अभ्यास होगा, जिसमें इनकी सेनाएं कुछ विशेष मामलों में एक-दूसरे के बेस का इस्तेमाल कर सकती हैं।

- 'युद्ध अभ्यास' 14 से 27 सितंबर तक उत्तराखंड में रानीखेत के पास चौबटिया में होगा।
- दोनों देशों के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां अध्याय है।
- अमेरिका की लगभग 225 सैन्यकर्मियों की एक टुकड़ी और इतने ही सैन्यकर्मियों की एक टुकड़ी भारतीय सेना की ओर से भाग लेगी।

विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स कुशलता सूचकांक में भारत ने 19 स्थानों की छलांग लगाई

भारत लॉजिस्टिक्स कुशलता सूचकांक में 160 देशों में 35वें स्थान पर है। 2014 में भारत एलपीआई रैंकिंग में 54वें स्थान पर था। यह 19 स्थानों की छलांग है।

- विश्व बैंक ने हाल में लॉजिस्टिक्स कुशलता सूचकांक (एलपीआई) 2016 रिपोर्ट जारी की है। इसका शीर्षक है 'कनेक्टिंग टू कम्पलीट 2016'। विश्व बैंक प्रत्येक दूसरे वर्ष लॉजिस्टिक्स कुशलता सूचकांक प्रकाशित करता है।
- सूचकांक में जर्मनी शीर्ष पर है।

भूटान में अगले महीने एशियाई टेनिस टूर टूर्नामेंट

भूटान में अगले महीने एशियाई टेनिस टूर का आयोजन किया जायेगा जो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट होगा।

- भारत, थाईलैंड और ईरान पहले ही एशियाई टूर के कई टूर्नामेंटों का आयोजन कर चुके हैं। भूटान में यह पहला टूर्नामेंट 16 से 18 सितंबर को होगा।

मिशेल टेमर ने ब्राजील के राष्ट्रपति पद की शपथ ली

ब्राजील में मिशेल टेमर ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इससे पहले डिल्मा रोसेफ के खिलाफ सीनेट में चली महाभियोग की सुनवाई के बाद उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया था।

- सीनेट में 61 सीनेटरों ने महाभियोग के पक्ष में और 20 सीनेटरों ने महाभियोग के खिलाफ वोट डाले। रोसेफ के हटने से देश में वामपंथी सरकार का 13 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। रोसेफ पर देश के बजट में गड़बड़ी के आरोप हैं।
- टेमर इस पद पर 31 दिसंबर, 2018 तक रहेंगे।

ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों का दो दिवसिय सम्मेलन खजुराहो में शुरू

खजुराहो में ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों का दो दिवसिय सम्मेलन शुरू हो गया है।

- सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने किया। इस सम्मेलन में भारत के साथ ही ब्रिक्स समूह के देश ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्री और शिष्टमंडल हिस्सा लेंगे।

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह सीसी भारत दौरे पर

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी तीन दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे।

- सीसी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आ रहा है जिसमें मंत्री, शीर्ष अधिकारी और कारोबारी नेता होंगे।

भारत-वियतनाम के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए हुए ये 12 अहम समझौते

भारत व वियतनाम के बीच 12 अहम समझौते हुए हैं। इनमें रक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और आईटी सेक्टर भी शामिल हैं।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम में उनके समकक्ष न्गुयेन शुआन फुक के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
- 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा के बाद यह भारत के प्रधानमंत्री की वियतनाम के लिए 15 साल में पहली यात्रा है।

भारत एवं मिस्र के मध्य समुद्री परिवहन हेतु समझौता

भारत एवं मिस्र के मध्य समुद्री परिवहन हेतु समझौता किया गया।

- इस समझौते से दोनों देश यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि समुद्री क्षेत्र का परिवहन के लिए ही नहीं बल्कि नौसेनिक बेड़े के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

जी-20 शिखर सम्मेलन-2016 का समापन

G20 शिखर सम्मेलन 4-5 सितम्बर 2016 को चीन के हांगझाऊ शहर में आयोजित किया गया था।

- इस वर्ष इसकी थीम 'एक अभिनव, मजबूत, परस्पर और समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था की ओर' थी।
- यह पहला मौका है जब यह सम्मेलन किसी चीनी शहर में आयोजित किया गया।
- इसके अलावा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में वर्ष 2010 में हुए G20 सम्मेलन के बाद यह दूसरा मौका है जब यह आयोजन किसी एशियाई देश किया गया।
- वर्ष 2016 का G20 शिखर सम्मेलन, 1999 में स्थापित इस संगठन का 11वाँ शिखर सम्मेलन है।
- भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित सभी G-20 देशों के नेताओं ने सम्मेलन में भाग लिया लिया।
- 8 देशों को इस सम्मेलन में मेहमान प्रतिनिधियों के रूप में शामिल किया गया – चाड, मिस्र, कजाकिस्तान, लाओस, सेनेगल, स्पेन, सिंगापुर और थाईलैण्ड।
- 2017 जी -20 शिखर सम्मेलन एंजेला मार्केल के नेतृत्व में हैम्बर्ग, जर्मनी में आयोजित किया जाएगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया

श्रीलंका सोमवार को मलेरिया मुक्त देश घोषित हो गया। इस उपलब्धि पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 सितंबर को प्रमाण पत्र दिया।

- दक्षिण-पूर्व एशिया में मालदीव के बाद श्रीलंका मलेरिया मुक्त दूसरा देश है। मालदीव 1984 में मलेरिया मुक्त हुआ था।
- इसके लिये श्रीलंका ने देश में अभियान चलाया और पर्यटकों तक की नियमित स्वास्थ्य जांच कराई।
- 24 घंटे हॉटलाइन स्थापित कर रोगियों की पहचान की, शीघ्र इलाज कराया।
- मच्छर रोधी नियंत्रण की जगह परजीवी नियंत्रण की रणनीति अपनाई।
- सफाई का ध्यान रखा और एकीकृत प्रबंधन की व्यवस्था कर समुदायों को जोड़ा।
- आखिरी मामला अक्टूबर 2012 में आया, जो नवंबर यह शून्य हो गया। साढ़े तीन साल से एक भी मामला नहीं सामने आया।

भारत-कजाखस्तान संयुक्त अभ्यास 'प्रबल दोस्तीक -16'

भारत-कजाखस्तान संबंधों को मजबूत बनाने के भारत के प्रयास के रूप में भारत और कजाखस्तान की सेना संयुक्त रूप से 'प्रबल दोस्तीक -16' अभ्यास कर रही हैं।

- भारतीय सेना ने विभिन्न पलाटून के जवान शामिल हैं। कजाखस्तान की सेना में विशेष संचालन इकाई के पालटून को शामिल किया गया है। यह अभ्यास कजाखस्तान के कारागंडा क्षेत्र में चलाया जा रहा है और 17 सितंबर, 2016 तक चलेगा।
- 14 दिनों के अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ग्रामीण और अर्ध शहरी माहौल में आतंकवाद और उग्रवादी चुनौतियों का सामना करने में अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना है।

यूएन चार्टर का संस्कृत में अनुवाद

संयुक्त राष्ट्र की मौलिक संधि, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संस्कृत में अनुवाद किया गया है।

- इसका अनुवाद अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार त्रिपाठी ने किया है।
- यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रैंसिस्को में दस्तखत किए गए थे। इसके 4 महीने बाद 24 अक्टूबर
- 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ वजूद में आया।
- यूएन चार्टर यूएन की 6 आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध है।

पहली बार रोबोट ने किया आंख का ऑपरेशन

ब्रिटेन में दुनिया में पहली बार शल्य चिकित्सकों (सर्जनों) ने आंख के ऑपरेशन के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया और आंख की रोशनी वापस लौटाई है।

- ऑक्सफोर्ड जॉन रेडक्लिफ अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने एक मिलीमीटर के सौवें हिस्से जितनी मोटी झिल्ली आंख से हटाई। ट्रायल में 12 लोगों का ऑपरेशन किया गया।

भट्टाचार्य, कोचर अमेरिका से बाहर की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में

भारत की शीर्ष महिला बैंकर - एसबीआई प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य, आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की मुख्य कार्यकारी शिखा शर्मा - अमेरिका से बाहर विश्व की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हैं। यह बात फॉर्च्यून द्वारा जारी एक सूची में कही गई जिसमें शीर्ष स्थान बैंकों सैंटेंडर की प्रमुख ऐना बोटीन को मिला है।

- फॉर्च्यून की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 शीर्ष शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 60 वर्षीय भट्टाचार्य दूसरे स्थान पर जबकि कोचर पांचवें और शर्मा 19वें स्थान पर हैं। इस सूची में अमेरिका से बाहर की महिलाओं को शामिल किया गया है।
- बाजार मूल्य के लिहाज से यूरो क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, बैंकों सैंटेंडर की समूह कार्यकारी अध्यक्ष, बोटीन ने ऐसे वक्त में एक बार फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जबकि हर जगह आर्थिक और राजनीतिक उतार-चढ़ाव का माहौल है।
- 2016 की सूची में 19 देशों को शामिल किया गया है।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष पर

यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हालिया टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष पर स्थान पर है।

- शीर्ष 200 संस्थानों में यूएस के 63, यूके 32 तथा ऑस्ट्रेलिया के 8 संस्थान शामिल हैं।
- एशिया में सबसे आगे सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (24) है।

- आईआईएससी बंगलुरु 201-250 वाले तथा आईआईटी मुंबई 301-350 वाले सेगमेंट में है।

राष्ट्रीय

रेल्वे ने यात्री मित्र सेवा लांच की

बुजुर्ग, विकलांग और बीमार यात्रियों की रेलवे यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने की एक पहल में, रेल मंत्रालय ने 'यात्री मित्रा सेवा' लांच की है जो व्हीलचेयर, बैटरी कारों और कुली सेवाओं तक आसानी से पहुंच बढ़ायेगा।

- यह योजना देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर चालू होगी।
- 'यात्री मित्र' के रूप में एक सहायक या किसी अन्य व्यक्ति को नामित किया जा सकता है।

खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिभा पहचान पोर्टल की शुरूआत

युवा मामलों एवं खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विजय गोयल ने खेल विभाग के तहत प्रतिभा पहचान पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है।

- इस पोर्टल का उद्देश्य देश के कोने-कोने के प्रतिभाशाली बच्चों को खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिये समुचित अवसर प्रदान करना है।
- बच्चे के खेल-प्रदर्शन और क्षमता को रेखांकित करने वाले वीडियो और फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड किये जा सकेंगे। इन्हें स्वयं बच्चे, उनके माता-पिता, अध्यापक या अन्य लोग पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
- पड़ताल के बाद क्षमतावान बच्चों को कई तरह की जांचों से गुजरने का अवसर मिलेगा। यह जांच प्रक्रिया अन्य स्थानों के साथ-साथ निकट के साई केंद्र में की जायेगी। जो बच्चा जांच में सफल होगा उसे साई के प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश दिया जायेगा।
- जो प्रतिभावान बच्चे किसी कारणवश अपने घर से बाहर नहीं जा पायेंगे, उन्हें खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिये छात्रवृत्ति दी जायेगी।
- योजना के अंतर्गत आठ साल या उससे अधिक आयु के प्रतिभाशाली बच्चों को लक्ष्य बनाया गया है।

जीएसटी: 20 लाख तक का कारोबार करने वाली इकाइयों को छूट

जीएसटी के लिये सालाना कारोबार छूट सीमा 20 लाख रुपये होगी जबकि पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में यह 10 लाख रुपये होगी।

- वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि 1.5 करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले करदाता राज्य के दायरे में आएंगे। जिनका कारोबार 1.5

करोड़ रुपये से अधिक है, दोहरे नियंत्रण से बचने के लिये उनसे केंद्र या राज्य के अधिकारी में से कोई एक पूछताछ करेगा।

जीएसटी के लिए 2,256 करोड़ रुपये की 'सक्षम' परियोजना मंजूर

सरकार ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की सक्षम परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए देशभर में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए एक नया नेटवर्क तैयार किया जाना है।

- परियोजना की कुल लागत 2,256 करोड़ रुपये होगी जो सात साल में खर्च की जाएगी।
- इस परियोजना से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने में भी सहायता मिलेगी।
- कस्टम विभाग के सिंगल विंडो इंटरफेस फोर फेसिलिटेटिंग ट्रेड (स्विफ्ट) का दायरा बढ़ाने में भी इस परियोजना से मदद मिलेगी।

तेलंगाना सरकार ने इसरो के साथ समझौता किया

तेलंगाना सरकार ने राज्य में 'मना टीवी' पर प्रसारित सामग्री की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने के लक्ष्य से इसरो के साथ समझौता किया है।

- इस समझौते से राज्य में मुक्त शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
- बैंडविड्थ का उपयोग छात्रों, किसानों, महिलाओं व नगर प्रशासन के लिये कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु किया जायेगा।

PSLV ने आठ उपग्रहों को लेकर भरी ऐतिहासिक उड़ान

भारत के 37वें प्रक्षेपण यान PSLV ने श्रीहरिकोटा से मौसम उपग्रह स्कैटसैट-1 और पांच अन्य देशों के उपग्रह सहित कुल आठ अलग-अलग उपग्रहों को लेकर सफलता से उड़ान भरी।

- पीएसएलवी के साथ भेजे जाने वाले तीन उपग्रह भारतीय तथा पांच विदेशी उपग्रहों में अल्जीरिया के तीन उपग्रह हैं। इसमें एक कनाडा का और अमेरिका का एक उपग्रह शामिल हैं।
- SCATSAT अंतरिक्ष में रहकर धरती पर वैज्ञानिकों को महासागर एवं मौसम संबंधी अनुसंधान में मदद करेगा और इससे मौसम, सूनामी और भूकंप जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी।

मथुरा में "पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेले" का उद्घाटन

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने मथुरा में चार दिवसीय पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला -2016 का उद्घाटन किया।

- कृषि मंत्री ने मथुरा में प्रथम गोकुल ग्राम परियोजना की आधारशिला भी रखी।

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंडित दीनदलाय उपाध्याय की जन्मस्थली मथुरा में 22 किसानों को अंत्योदय कृषि पुरस्कार दिया।

2019 तक हर घर में शौचालय का लक्ष्य: तोमर

पेयजल मंत्री नरेन्द्र तोमर ने बताया कि वे सन 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हर घर में शौचालय का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

- इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अब तक 23 जिले पूरी तरह खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं।
- 85 हजार गांवों के हर घर में पक्के शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है।
- स्वच्छ भारत सप्ताह 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है।

ताजमहल से बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान की शुरुआत

भारत में पहली बार ताजमहल में किसी खास मकसद से चाइल्डहुड कैंसर पर ताज गोज गोल्ड महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया है।

- करीब 1500 बच्चे इसमें भाग लेंगे। कैन किड्स...किड्सकैन की यह प्रदर्शनी गो गोल्ड इंडिया-ताज गोज गोल्ड और यूपी गोज गोल्ड कैंपेन का भाग है, जो कैंसर सर्वाइवर्स (अब स्वस्थ हो चुके, पहले कैंसर से पीड़ित) बच्चों के नेतृत्व में चलाया जाने वाला जन जागरूकता अभियान है।
- सीएम अखिलेश ने भी इस अभियान को अपना समर्थन दिया है।

सार्क देशों के बीच आतंकवाद रोधी तंत्र को मजबूत करने पर बैठक दिल्ली में सम्पन्न

सार्क देशों के विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय समूह की दूसरी बैठक नई दिल्ली में हुई। दो दिवसीय इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद रोधी तंत्र को मजबूत करना था।

- सभी आठ सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सम्मेलन में भाग लिया।
- सार्क सदस्यों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।

राजस्थान ने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर लगाई 5 लाख एलईडी लाइट

भारत सरकार के स्ट्रीट लाइटिंग नैशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) को अपने सभी शहरी लोक निकायों (यूएलबी) में अपनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। पूरे राज्य में करीब पांच लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं।

- इस पूरी स्ट्रीट लाइट परियोजना के लिए वित्तीय मदद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) ने दी है। ईईएसएल, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली पब्लिक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है।

श्रीनगर में पीएम उज्वला योजना लांच

जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर में राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा प्रधानमंत्री उज्वला योजना की शुरुआत की गई।

- प्रधानमंत्री उज्वला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 01 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी।
- इस योजना के तहत देश भर में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार की महिलाओं को भोजन पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जाना है।

पर्यटन निवेशक सम्मेलन में पांच राज्यों के मध्य 15,500 करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षर

अतुल्य भारत पर्यटन निवेशक सम्मेलन में पांच राज्यों गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य कुल 15 हजार 500 करोड़ रुपये के 86 सहमति ज्ञापन पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए।

- इसके अलावा अनेकों सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये जाना बाक़ी है। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन निवेश को आकर्षित करने उद्देश्य से सम्मेलन आयोजित किया गया।

भारत को एवियन इन्फ्लूएंजा एच5एन1 से मुक्त

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने भारत को एवियन इन्फ्लूएंजा (एच5एन1) या बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया।

- भारत ने स्वयं को एवियन इन्फ्लूएंजा (एच5एन1) से मुक्त घोषित कर दिया और इसकी सूचना विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईडी) को दे दी।
- केंद्र ने राज्यों के प्रधान सचिवों को लिखे पत्र में विशेषकर संक्रमित देशों की सीमा से सटे इलाकों तथा प्रवासी पक्षियों की आवाजाही वाल इलाकों में निगरानी जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया है।

अफ्रीकी विकास बैंक की बैठक अहमदाबाद में होगी

भारत अगले साल मई में अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) समूह की वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा।

- बैठक मई 22-26 को महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर, अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी, जिसमें एएफडीबी के 80 सदस्य देशों से 5,000 से अधिक प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।

ऑल इंडिया रेडियो ने बलूच वेबसाइट और मोबाइल एप की शुरुआत की

आल इंडिया रेडियो ने बलूच निवासियों को जोड़ने के लिए बलूच प्रसारण सेवा की मल्टी मीडिया वेबसाइट और मोबाइल एप को लांच किया गया है।

- शॉर्ट वेव सेवा बलूच में 1974 से ही प्रसारित हो रही है जिसमें समाचार, कमेंटरी व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।

युद्धपोत 'मोरमुगाओ' नौसेना में शामिल

भारतीय नौसेना का सबसे शक्तिशाली विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ का मुंबई से जलावतरण हुआ। जलावतरण के मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि रडार की नजर से बच निकलने में सक्षम इस विध्वंसक युद्धपोत की तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जंगी जहाजों से की जा सकती है।

- परियोजना 15बी के तहत विशाखापत्तनम वर्ग के जहाज 'मोरमुगाओ' का निर्माण सरकारी मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड (एमडीएल) ने किया है।

इसरो ने लॉन्च किया इनसेट 3DR

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 8 सितम्बर को मौसम उपग्रह जीएसएलवी- एफ 05/ इनसैट 3 डीआर का प्रक्षेपण कर दिया।

- इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र के प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-एफ 05 के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया।
- सैटलाइट INSAT 3DR का वजन 2,211 किलो है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में विकसित क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल जीएसएलवी के ऑपरेशनल फ्लाइट में किया गया है।
- इनसैट-3DR भारत की एक अग्रिम मौसम उपग्रह है जिसमें एक इमेजिंग प्रणाली और एक वायुमंडलीय साउंडर लगा है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी विधेयक को दी मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 16 राज्यों से मंजूरी मिलने के बाद जीएसटी विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा था।

- राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब जीएसटी को देश में लागू करने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खुल गया है।
- संसद ने अगस्त में बिल को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी लेने से पहले इस बिल पर आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी मिलना आवश्यक था।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉंग्रेस बंगलुरु में शुरू

एक आम रोडमैप को साझा करने व प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के उद्देश्य से तीन दिवसिय इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉंग्रेस की बंगलुरु में शुरुआत हुई।

- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रवि शंकर प्रसाद और दूरसंचार मंत्रालय सचिव जे एस दीपक द्वारा इवेंट का उद्घाटन किया गया।
- यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स पेशेवरों (हार्डवेयर उपकरण, पोर्टेबल, सेंसर, सॉफ्टवेयर, व्यापार) और नियामकों (नियामक, प्रशिक्षण, IoT में निवेशकों, अंत उपयोगकर्ताओं) को साथ लायेगा व एक उद्योग सक्षम प्लेटफॉर्म बनायेगा।
- इस इवेंट में 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स थॉट लीडरशिप अवार्ड' व 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप अवार्ड' भी दिये जायेंगे।

मजुली को जिले का दर्जा

असम में ब्रह्मपुत्र के पास 400 वर्ग किमी का द्वीप मजुली भारत का पहला द्वीपिय जिला बन गया है।

- द्वीप, जो राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है, अपने अस्तित्व के लिये लड़ रहा है क्योंकि इसका लगभग भाग 60% ब्रह्मपुत्र से धुल गया है।
- द्वीप विशाल ब्रह्मपुत्र द्वारा दुनिया से कटा रहता है।
- माजुली के असम का 35वां जिला बनने के साथ, यहाँ रहने वाले 1 लाख 54 हजार लोगों को राहत मिली है।
- माजुली, जो 1950 में 1,245 वर्ग किमी क्षेत्र में था, अपने क्षेत्र का लगभग 60% सिकुड़ गया है।

मंडी और सिंधुदुर्ग देश के सबसे स्वच्छ जिले

पेयजल तथा स्वच्छता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण भारत के लिए 'स्वच्छ सर्वेक्षण' जारी करते हुए खुलासा किया है कि मंडी (हिमाचल प्रदेश) और सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) देश के सबसे स्वच्छ जिले हैं।

- मई 2016 में शुरू किए गए ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण में 22 पहाड़ी जिलों और 53 मैदानी जिलों को शामिल किया गया था।
- पहाड़ी जिलों में मंडी को सबसे अधिक स्वच्छ और मैदानी जिलों में सिंधुदुर्ग सबसे अधिक स्वच्छ जिले घोषित किए गए। सर्वेक्षण में मंडी (हिमाचल प्रदेश) और सिंधुदुर्ग के अलावा सिक्किम के जिले, हिमाचल प्रदेश का शिमला, पश्चिम बंगाल का नादिया और महाराष्ट्र का सतारा जिला स्वच्छता सूचकांक में शीर्ष पर रहे।

- मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया(क्यूसीआई) को जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रत्येक जिले का मूल्यांकन चार मापदंडों के आधार किया गया। मापदंडों में सबसे अधिक अंक स्वच्छ जल और शौचालय की सुलभता को दिए गए।

झारखंड पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य

झारखण्ड पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

- केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के सभी वित्त सचिवों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान झारखंड की प्रशंसा की।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए कॉमिक बुक और अमर चित्रकथा का सहारा

भारत की अनेक पीढ़ियों को कहानियां सुनाने वाली अमर चित्र कथा स्वच्छ भारत मिशन पर 'कॉमिक-बुक' के एक विशेष संस्करण का प्रकाशन और वितरण करेगी।

- प्रकाशन और वितरण के लिए शहरी विकास मंत्रालय और अमर चित्र कथा के बीच सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केरल के साथ संयुक्त उद्यम बनाएगी रेलवे

केरल सरकार ने रेलवे के साथ रेल परियोजनाओं के लिए राज्य में 51:49 इक्विटी भागीदारी वाला संयुक्त उद्यम बनाने का फैसला किया है।

- आधिकारिक सूत्रों ने यहां कहा कि राज्य सरकार ने संयुक्त उद्यम के तहत रेल परियोजनाओं पर विचार विमर्श के लिए एक प्राथमिकता सूची बनाई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने "मेरा अस्पताल" कार्यक्रम का उद्घाटन किया

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा ने तिरुपति, आंध्रप्रदेश में जन स्वास्थ्य सुविधाओं में नवाचार और बेहतर एवं अनुकरणीय पद्धतियों के बारे में तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान "मेरा अस्पताल/माई हॉस्पिटल" कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

- इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें कोई भी नया कार्यक्रम शुरू करने के लिए स्केल, स्किल और स्पीड के बारे में अवश्य सोचना चाहिए, जिन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बल देते रहे हैं।

गुजरात बना दो करोड़ एलईडी बल्ब वितरित करने वाला देश का पहला राज्य

केंद्र सरकार द्वारा संचालित उजाला (उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल) योजना के तहत गुजरात, दो करोड़ एलईडी बल्ब वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

- सरकार की उजाला योजना के तहत गुजरात ने यह आंकड़ा महज 96 दिन में प्राप्त किया है और इससे करीब 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है।

सरकार ने 11 राज्यों में राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी

सरकार ने 11 राज्यों में 16 राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन 7,457 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।

- ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम से जुड़ी हैं।

ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल शुरू

पांच देशों के समूह ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत दिल्ली के सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में हुई।

- पांच दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौर ने किया।
- इस फेस्टिवल को गोवा में अगले महीने होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

गुजरात सरकार ने छोटे एयरपोर्ट विकसित करने हेतु एएआई एवं केंद्र सरकार के साथ समझौता किया

गुजरात सरकार ने भारतीय विमान प्राधिकरण (एएआई) एवं केंद्र सरकार के साथ 1 सितंबर 2016 को एक त्रिपक्षीय समझौता (एमओयू) किया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 11 छोटे एयरपोर्ट विकसित करना है।

- केंद्र सरकार की नई नागरिक उड्डयन नीति बुनियादी सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय संपर्क पर जोर देती है।

ओडिशा में 'बीजू कन्या रत्न योजना' शुरू

ओडिशा के तीन जिलों (गंजम, डेकानल, अंगुल) में लड़कियों के विकास के लिए ओडिशा सरकार ने बीजू कन्या रत्न योजना (बीकेआर वाई) की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने योजना का शुभारंभ किया।

- इस योजना का उद्देश्य जन्म के समय लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात में सुधार करना है।
- यह प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के नामांकन, लड़कियों के स्कूल छोड़ने पर निगरानी और उनके लिए बेहतर माहौल का निर्माण करना सुनिश्चित करेगी।

गृह मंत्रालय की समिति ने पेलेट गन के संबंध में रिपोर्ट सौंपी

टी वी एस एन प्रसाद की अध्यक्षता में समिति ने पेलेट गन पर रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को सौंप दी।

- ऐसा माना जा रहा है कि समिति ने पेलेट गन के इस्तेमाल को पूरी तरह बंद करने की सिफारिश नहीं की है बल्कि इनका बेहद कम अथवा विरल से विरलतम स्थिति में प्रयोग करने का सुझाव दिया है।
- केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पेलेट गन के स्थान पर अन्य संभावित विकल्प तलाशने के लिये विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी।

जम्मू एवं कश्मीर में खेल गतिविधियों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2016 को युवाओं को खेलों से जोड़ने हेतु जम्मू एवं कश्मीर में सकारात्मक खेल गतिविधियों के लिए 200 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की।

- इस पैकेज के तहत राज्य के सभी जिलों में इंडोर स्पोर्टिंग हॉल बनाए जायेंगे ताकि शीत ऋतु में युवा इन हॉलों में खेल सकें।

माजुली सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने असम के माजुली को 1 सितंबर 2016 को विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में दर्ज किया। इसने ब्राजिल के मराजो को पीछे छोड़ा। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 880 वर्ग किलोमीटर है।

- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, यह द्वीप पिछले 30-40 वर्षों में बाढ़ के कारण लगभग एक तिहाई भू-भाग खो चुका है।

भारतीय डाक: मदर टेरेसा पर स्मारक डाक टिकट जारी

मदर टेरेसा को संत घोषित किये जाने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग ने मदर टेरेसा के नाम पर डाक टिकट जारी किया है।

- सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार केन्द्रीय संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने मुंबई के डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल में आयोजित एक समारोह में डाक टिकट जारी किया।
- मिशरिज ऑफ चैरिटी के प्रतिनिधि के रूप में बिशप एग्रेलो ग्रेसियस और सिस्टर रूबेला समारोह में उपस्थित थे।
- गौरतलब है कि अपना पूरा जीवन गरीबों और वंचितों की सेवा में लगाने वाली मदर टेरेसा को रोम के वेटिकन सिटी में कैथोलिक पोप फ्रांसिस ने औपचारिक रूप से संत घोषित किया।

नौसेना को मिला 'तिहायु'

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) द्वारा निर्मित वॉटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (डब्ल्यूजेएफएसी), "तिहायु" कोलकाता में भारतीय नौसेना के सुपुर्द कर दिया गया।

- जीआरएसई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त) ए.के.वर्मा ने जीआरएसई में आयोजित एक समारोह में यह युद्धपोत जहाज के कमांडिंग अधिकारी कमांडर अजय केशव के सुपुर्द किया।
- पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ अधिकारी (तकनीकी) रियर एडमिरल एस. आर. सरमा ने नौसेना द्वारा स्वीकृत किए जाने से पहले जहाज का अंतिम निरीक्षण किया।

हरियाणा: 340 गांवों को किया जाएगा बागवानी विकसित

हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 340 गांवों को बागवानी विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा, बागवानी विलेज विकसित करने पर 93 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।

- 140 कलस्टर स्थापित किए जाने की भी घोषणा की गई।
- नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बागवानी विभाग तथा एपियो इंक के बीच सहयोग के लिए सहमति (एमओसी) पर हस्ताक्षर किये गए।
- इसके चलते हरियाणा एनसीआर में फल, फूल, सब्जी व डेरी उत्पादों की पूर्ति करेगा।

किरण बेदी ने पुदुचेरी के गांव में श्रमदान अभियान आरंभ किया

पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने स्वच्छ भारत और स्वच्छ पुदुचेरी की पहल पर एक सुदूरवर्ती गांव में श्रमदान अभियान की शुरुआत की।

- इस अभियान की शुरुआत बहूर समुदाय पंचायत के सेलियामेडु गांव से की गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वच्छ पुदुचेरी के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जाए।

गोवा में होगा तीन दिवसिय बर्ड फेस्टीवल

गोवा में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक 'बर्ड फेस्टीवल' का आयोजन किया जाएगा। जिसमें 200 पशु प्रेमी भाग लेंगे।

- गोवा राज्य की पक्षी बुलबुल को इस आयोजन का लोगो बनाया जाएगा।
- पूरे भारत में पक्षियों की 1224 जातियां हैं और विश्व में 10293 जातियां हैं। इन प्रजातियों में गोवा में 432 जातियां हैं।

प्रधानमंत्री आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 11वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की राजधानी वियंतिन में 7-8 सितंबर को होने वाले 14वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 11वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे

- आसियान भारत की ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए ऐसा अहम साझेदार है जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में सबसे बड़े कुष्ठ रोग निदान अभियान की शुरुआत

भारत से कुष्ठ रोग के आमूल उन्मूलन के लिए दृष्टिकोण के अनुपालन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब तक का सबसे बड़ा कुष्ठ रोग निदान अभियान (एलसीडीसी) शुरू किया है। यह अभियान 5 सितंबर, 2016 से 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 149 जिलों में शुरू कर दिया गया है।

- उक्त अभियान 15 दिन चलेगा और इस दौरान उपरोक्त जिलों के 1656 संभागों/शहरी क्षेत्रों के कुल 32 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी।
- इस काम में 297604 टीमों को लगाया गया है जिनमें एक महिला आशा कर्मी और एक पुरुष स्वयंसेवी शामिल हैं। ये टीमें निर्धारित क्षेत्रों के प्रत्येक घर का दौरा करेंगी और कुष्ठ रोग के संबंध में परिवार के सभी सदस्यों की जांच करेंगी।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहली बार 'अतुल्य भारत पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन' का आयोजन

पर्यटन मंत्रालय द्वारा 21 सितंबर, 2016 से 23 सितंबर, 2016 तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अतुल्य भारत पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन (आईआईटीआईएस) का आयोजन किया जाएगा।

- इस सम्मेलन का आयोजन टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (टीएफसीआई) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से किया जा रहा है।
- आईआईटीआईएस घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भारतीय राज्यों और निजी क्षेत्र के परियोजना मालिकों से मुलाकात का एक मंच प्रदान करेगा।

सिलचर में एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने 55 वें शिक्षक दिवस के अवसर पर एनआईटी सिलचर में एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया व इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित किया।

- इस संस्थान की अपनी पिछली यात्रा के दौरान डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने इच्छा जताई थी कि यहां 1 लाख पुस्तकों और शोध पत्र के साथ एक विश्व स्तर का पुस्तकालय बने।
- उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए, 28 करोड़ की लागत से 90,000 वर्ग फीट पर बने पुस्तकालय का नाम 'भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम लर्निंग रिसोर्स सेंटर' रखा गया है। यह खुला 24X7 रहेगा।
- मुख्यमंत्री ने डिजिटल पुस्तकालय के परिसर में दिवंगत राष्ट्रपति की संगमरमर की प्रतिमा का भी अनावरण किया।

प्राकृतिक गैस के प्रोत्साहन हेतु गैस-4-इण्डिया अभियान का शुभारंभ किया

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान ने गैस4इण्डिया (Gas4India) अभियान का शुभारंभ किया।

- यह अभियान देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहन हेतु आरम्भ किया गया है।
- देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहन हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां मिलकर काम करेंगी।
- प्रधान ने अभियान को प्रभावी बनाने हेतु वेबसाइट ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और थीम गीत का भी शुभारंभ किया।
- गैस फॉर इण्डिया (Gas4India) सम्पूर्ण बाह्य में मल्टीमीडिया, बहु उद्देशीय अभियान है।
- ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ को बढ़ावा देता है।

बिजली कटौती की जानकारी के लिए हेल्पलाइन 14401 जारी

उपभोक्ता अब अपने इलाके में बिजली कटौती के बारे में बिजली वितरण कंपनियों से उर्जा मित्र हेल्पलाइन के जरिये जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें 14401 नंबर डायल करना होगा।

- दूरसंचार विभाग ने यह हेल्पलाइन नंबर तैयार किया है। इसके जरिये बिजली वितरण कंपनियों उपभोक्ताओं को बिजली कटौती के बारे में जानकारी दे सकेंगी।
- इस नंबर पर कॉल करके बिजली उपभोक्ता पहले से बनाए गए कटौती के शेड्यूल के बारे में पता कर सकेंगे।
- यह अनिवार्य सेवा होगी जिसे सभी दूरसंचार आपरेटरों को उपलब्ध कराना होगा।

जरूरी दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के स्टोरेज के लिये डिजिलॉकर लांच

देश के पहले क्लाउड आधारित सुरक्षित प्लेटफार्म डिजिलॉकर को नई दिल्ली में लांच किया गया। इसमें जरूरी दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को रखा जा सकता है और इसका डिजिटली सत्यापन भी किया जा सकेगा।

- इस प्लेटफार्म का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मिलकर परिवहन मंत्रालय में किया।
- इस प्लेटफार्म को डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत लांच किया गया है। इसका लक्ष्य कागजरहित शासन का विचार है, ताकि लोगों का सशक्तिकरण हो।
- डिजिलॉकर के आने के बाद अब दस्तावेजों को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। इसे कहीं भी कभी भी एक्सेस किया जा सकेगा, ऑनलाइन साझा भी किया जा सकेगा और जालसाजी से भी बचाव होगा।
- ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के डिजिलॉकर में रखकर उसे मोबाइल फोन से भी एक्सेस किया जा सकेगा।
- इस पर अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और ई-साइन सुविधा से डिजिटली साइन भी कर सकते हैं, जो खुद से सत्यापन की प्रक्रिया जैसी है।

टेली-मेडीसिन सेवाओं की ईएसआईसी पायलट परियोजना का पहला चरण आरंभ

श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज यहां टेली-मेडीसिन सेवाओं की ईएसआईसी पायलट परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह सेवा दूर स्थित बीमित कामगारों को विशिष्ट चिकित्सा सहायता उपलब्ध करेगी।

- इसके साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) आदर्श अस्पताल बसइंदारपुर को कटिहार (बिहार), उन्नाव (उत्तर प्रदेश) और रुद्रपुर (उत्तराखंड) की तीन ईएसआईसी डिस्पेंसरियों से जोड़ दिया गया है।
- ईएसआईसी ने टेली-मेडीसिन की एक महत्वाकांक्षी पायलट परियोजना 11 ईएसआई स्थानों पर शुरू किया है। यह परियोजना मोहाली स्थित सी-डेक के सहयोग से “डिजिटल समावेशी एवं स्मार्ट समुदाय (डीआईएससी)” के तत्वावधान में शुरू की गई है, जो केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है।
- इन सभी तीन विशिष्ट ईएसआईसी अस्पतालों को देश के दूर-दराज के इलाकों में स्थित 8 ईएसआई डिस्पेंसरियों से जोड़ा जाएगा, जहां कोई विशिष्ट ईएसआई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है।

स्वदेश निर्मित एलयूएच की तकनीकी उड़ान का संचालन

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने स्वदेश निर्मित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (एलयूएच) की एक तकनीकी उड़ान संचालित की।

- पुराने हो चुके चेतक हेलीकॉप्टर की जगह लेने वाले एलयूएच ने एचएएल की एक फेसिलिटी में 15 मिनट तक उड़ान भरी।
- एचएएल को सशस्त्र बलों से ऐसे करीब 200 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर मिला है।
- इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण बंगलुरु से करीब 70 किमी दूर तुमकुरु नामक स्थान पर किया जायेगा।

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन के तहत 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी

पर्यटन मंत्रालय में स्वदेश दर्शन योजना के लिए केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में विरासत सर्किट, उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट, सिक्किम में पूर्वोत्तर सर्किट और तमिलनाडु में तटीय सर्किट के विकास के लिए 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

- मध्यप्रदेश के विरासत सर्किट में अनुमानित 100 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो-चंदेरी-भीमबेटका-मांडू को कवर किया जायेगा।
- उत्तराखंड में विरासत सर्किट में लगभग 83 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से जागेश्वरी-देवीधुरा-कटारमल-बैजनाथ स्थलों पर पर्यटन बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है।
- तमिलनाडु के तटीय सर्किट में चेन्नई- ममल्लापुरम-रामेश्वरम-मनपद-कन्याकुमारी में विकास के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के लिए मंजूरी दी गई है।
- उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट में दो स्थलों अर्थात् चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर में विकास किया जायेगा।
- सिक्किम के पूर्वोत्तर सर्किट के लिए तकरीबन 95.50 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से इको लॉग हट बनाना, सांस्कृतिक केंद्र, पैराग्लाइडिंग सेंटर, वास्तुशिल्प बाजार, पर्वतारोहण के लिए आधार शिविर और ध्यान कक्ष विकसित किये जाने की योजना है।

सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य, झारखंड अंतिम स्थान पर

छब्बीस राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति पर सूची में सिक्किम को सबसे स्वच्छ राज्य माना गया है जबकि स्वच्छता के मामले में झारखंड सबसे आखिरी पायदान पर है।

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा पिछले साल किए गए सर्वेक्षण के नतीजे को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया।
- एनएसएसओ ने यह सर्वेक्षण मई-जून 2015 में कराया। इसमें समूचे देश के 3788 गांवों के 73176 घरों को शामिल किया गया।
- सिक्किम ने 100 के पैमाने पर 98.2 फीसदी अंक हासिल किए जबकि झारखंड को 17.7 अंक मिले।

जम्मू कश्मीर-हिमाचल के 10 सेक्टरों में सस्ती हेलीकॉप्टर सेवाओं को मंजूरी

सरकार ने जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के दस सेक्टर में रियायती किराये पर हेलीकॉप्टर सेवा चलाने की स्वीकृति दे दी है।

- विशिष्ट व्यक्तियों, दौरे पर निकले सरकारी अधिकारियों, आयकरदाताओं या पर्यटकों को रियायती किराये की सुविधा नहीं मिलेगी।
- इस सेवा के प्रचालक को खुली निविदा प्रक्रिया से चुना जाएगा।

- इस सेवा का संचालन इन राज्यों में अगले साल मार्च तक या अनुबंध की समाप्ति तक जारी रहेगा।

जम्मू: मुख्यमंत्री ने शुरू की सीएम स्कूटी स्कीम

जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने छात्राओं को कॉलेज जाने के लिये प्रेरित करने के लिये आकर्षक स्कूटी स्कीम की शुरुआत की है।

- मुख्यमंत्री ने इस 'सीएम स्कूटी स्कीम (CM Scooty scheme) के तहत दो कॉलेजों की करीब 300 छात्राओं को स्कूटर बांटे।
- आवेदन के लिए 65 फीसदी अंक और परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये तक होनी चाहिए थी।

'सारथी' देश को समर्पित

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में समुद्री गश्ती पोत सारथी कोस्टगार्ड को सौंपा।

- तटरक्षक बल का पोत 'सारथी' छह तटीय गश्ती पोत की शृंखला में तीसरा पोत है।
- सारथी के कोस्टगार्ड में शामिल होने से इसकी ताकत में कई गुना इजाफा होगा तथा यह पेट्रोलिंग में मददगार होगा।

ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यशाला एवं आरोग्य मेले का आयोजन

भारतीय चिकित्सा प्रणाली (आरोग्य) द्वारा बंगलुरु में भारतीय चिकित्सा प्रणाली व होमियोपैथी की मजबूती के प्रदर्शन के लिये एक राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। इसके अलावा ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यशाला का भी आयोजन हुआ।

- केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नाईक एवं केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन तथा संसदीय मामले मंत्री अनंत कुमार ने शनिवार को बेंगलुरु में आरोग्य पर राष्ट्रीय मेले का उदघाटन किया।

डाक संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री सेवा लॉन्च

डाक सेवाओं से संबंधित अपनी शिकायतें अब 1924 नंबर पर फोन कर के दर्ज करा सकते हैं जो निःशुल्क नंबर है। सरकार ने दूरसंचार एवं डाक संबंधी शिकायतों के लिए एक माह पहले ट्वीटर सेवा शुरू करने के बाद अब डाक संबंधी शिकायतें दर्ज कराने की यह सुविधा शुरू की।

- यह सेवा शुरू में प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चालू रहेगी।
- इसमें हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम में शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- शिकायतों के दर्ज होने के लिहाज से डाक विभाग का स्थान आठावां है।

भारत रूस कार्यकारी समूह की चौथी बैठक नई दिल्ली में संपन्न

भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में द्विपक्षीय निवेश सहयोग को मजबूत बनाने पर सहमति जताई।

- दोनों देशों ने मौजूदा परियोजनाओं की समीक्षा की और रसायन, वाहन, इंजीनियरिंग तथा विमानन जैसे क्षेत्रों में नई परियोजनाओं में निवेश अवसरों पर चर्चा की।
- दोनों पक्षों ने रूसी तथा भारतीय कंपनियों को चिन्हित प्राथमिक निवेश परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश की।
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक तथा रूसी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई आर्थिक विकास मामलों के उप मंत्री एलेक्जेंडर साईबुल्कसी ने की।

अरुणाचल प्रदेश में प्रथम प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर का उद्घाटन

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ईटानगर के नाहरलगुन में अरुणाचल प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर का उद्घाटन किया।

- इस अवसर पर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू भी उपस्थित थे।
- इस समारोह में, दोनों गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधीन एक एजेंसी भारतीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (बीपीपीआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- समझौते के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश में 84 जन औषधि स्टोर खोले जाएंगे।

जे पी राजखोवा को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद से हटाया

राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि जे पी राजखोवा को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद से हटा दिया गया है।

- मेघालय के राज्यपाल श्री वी षण्मुगनाथन को अपने कर्तव्यों के अलावा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियमित प्रबंध होने तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- इससे पहले राजखोवा ने त्यागपत्र देने से इंकार करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा हटाने से ही वे पद से हटेंगे।

14 सितम्बर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया

14 सितम्बर 2016 को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया।

- संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को एक मत से निर्णय लिया गया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी लिये इस दिन को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विशाखापट्टनम में शहरीकरण पर तीन-दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन

तीसरा ब्रिक्स शहरीकरण सम्मेलन आंध्रप्रदेश में विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है।

- मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकेया नायडू और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।
- ब्रिक्स देशों यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शिष्टमंडल इस सम्मेलन में उत्पादकता बढ़ाने, शहरों के लिए अलग वित्त प्रणाली बनाने और रोज़गार के अवसर सृजित करने पर चर्चा करेंगे। तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान होने वाले विचार-विमर्श और चर्चा के आधार पर वाइज़ैंग घोषणा पत्र तैयार किया जायेगा।

आंध्र प्रदेश 100% विद्युतीकरण वाला देश का दूसरा राज्य

गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश 100 फीसदी विद्युतीकरण वाला दूसरा राज्य हो गया है। एक ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

- जेएम फाइनेंशियल ने विभिन्न राज्यों में विद्युतीकरण पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की है।
- उर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, “हमने जून के अंत तक 100 फीसदी विद्युतीकरण हासिल कर लिया।

स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं के लिए आकर्षक स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना का शुभारंभ किया है।

- राज्य सरकार ने इसका एक्शन प्लान भी लांच किया है तथा सभी 27 जिलों में बूट कैंप लगाये जायेंगे।
- जनवरी में स्टार्ट अप इंडिया योजना लांच करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से भी इसी तरह की योजनाएं आरंभ करने का आह्वान किया था।

प्रभु ने रेलवे परिसर में स्वच्छता अभियान शुरू किया

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 'स्वच्छ सप्ताह' की शुरुआत की।

- सफाई अभियान की शुरुआत के बाद प्रभु ने कहा कि रेल परिसर में सफाई और स्वच्छता तथा सफर करने वाले लोगों के बीच सफाई को एक आदत बनाने के प्रति व्यापक जागरूकता प्रदर्शित करते हुए रेलवे 17 सितम्बर से नौ दिवसीय लंबा लोक संपर्क कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने आईआईटी, गुवाहाटी में परम-ईशान सुपर-कंप्यूटर का शुभारंभ किया

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 सितंबर, 2016 को आईआईटी, गुवाहाटी में परम-ईशान सुपर-कंप्यूटर का शुभारंभ किया।

- आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक प्रो. गौतम विश्वास ने कहा कि परम-ईशान की शक्ति 250 टेराफ्लॉप है और उसकी क्षमता तीन सौ टेरा-बाइट है। इससे न सिर्फ अनुसंधान में तेजी आयेगी, बल्कि सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिये ईको-प्रणाली को बनाने में भी मदद मिलेगी।

पर्यटन मंत्रालय 16 से 30 सितंबर, 2016 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगा

पर्यटन मंत्रालय जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वच्छता की आवश्यकता के प्रति सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए 16 से 30 सितंबर, 2016 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगा।

- पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी एवं कर्मचारी पखवाड़े के दौरान इंडिया गेट और उसके चारों ओर, जंतर मंतर, निजामुद्दीन दरगाह, आदि पर्यटन स्थलों की सफाई का कार्य शुरू करेंगे। अंग्रेजी में एवं 25 सितंबर, 2016 को हिंदी में स्वच्छता के शीर्षक पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

हरियाणा : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी को राज्य का 22वां जिला घोषित किया

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सबसे बड़े उपमंडल चरखी दादरी को जिला घोषित कर दिया। यह हरियाणा प्रदेश का 22 वां जिला होगा।

- मनोहर लाल ने कहा कि संघ ने वर्ष 1992 में दादरी को संगठनात्मक रूप से जिला बना दिया था तथा यहां एक जिले की तरह ही प्रतिनिधी नियुक्त किये जा चुके हैं।

लुधियाना में "शौचालय के साथ सेल्फी" अभियान की शुरुआत

स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए तथा लोगों को स्वच्छ शौचालय के प्रयोग के प्रति जागरूक करने के लिए लुधियाना जिला प्रशासन ने 'अपने शौचालय के साथ सेल्फी' अभियान की शुरुआत की।

- सबसे स्वच्छ शौचालय के मालिक को सभी सुविधा प्रदान की जायेंगी तथा 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जायेगा।
- जिला प्रशासन का पूरे जिले को 31 अक्टूबर तक देहात क्षेत्र में व्यक्तिगत तौर पर शौचालय देने का लक्ष्य है। इसके लिए जिले में 26107 शौचालय बनाने का लक्ष्य है। प्रशासन की ओर से अब तक बीस हजार शौचालय बनाए गए हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के दायरे में मार्च 2017 तक 147 योजनाओं को लाया जाएगा

सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआती सफलता से उत्साहित है और मार्च तक ऐसी योजनाओं की संख्या दोगुनी कर 147 करेगी।

- वित्त सचिव अशोक लावासा ने कहा कि पायलट आधार पर लोगों को खाद्यान, केरोसिन तथा उर्वरक के लिये सब्सिडी उनके खाते में दे दी जा रही है।

- फिलहाल 17 सरकारी विभागों तथा मंत्रालयों की 74 योजनाओं के लिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है।

27 नये स्मार्ट शहरों की सूची जारी

उत्तर प्रदेश और पंजाब के पांच शहरों ने केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को घोषित की गई 27 स्मार्ट सिटीज की तीसरी लिस्ट में जगह बनाई है। इन दोनों ही राज्यों में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

- महाराष्ट्र से पांच शहर (ठाणे, नासिक, नागपुर, कल्याण-डोम्बीवली और औरंगाबाद)
- चार तमिलनाडु (मदुरै, सेलम, तंजावुर और वेल्लोर) और कर्नाटक से (हुबली-धारवाड़, मंगलुरु, शिवमोगा और टुमकरु)
- उत्तर प्रदेश से तीन (वाराणसी, कानपुर और आगरा)
- दो पंजाब (अमृतसर और लुधियाना), राजस्थान (कोटा और अजमेर) और मध्य प्रदेश से (ग्वालियर और उज्जैन)
- एक-एक आंध्र प्रदेश (तिरुपति), ओडिशा (राउरकेला), गुजरात (वडोदरा), नागालैंड (कोहिमा) और सिक्किम से (नामची)

भारत ने किया चांदीपुर रेंज में मिसाइल का सफल परीक्षण

हवा में अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा करते हुए भारत ने ओडिशा तट से दूर एक रक्षा प्रतिष्ठान से सतह से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

- डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया कि चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से एक मोबाइल लांचर के जरिए भारत और इस्त्राइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित लंबी दूरी के मिसाइल का परीक्षण किया गया।
- डीआरडीओ के वैज्ञानिक ने बताया कि परीक्षण सफल रहा और जल्दी ही कुछ और दौर के परीक्षण किये जाने की संभावना है।

प्रधानमंत्री की वेबसाइट का पंजाबी संस्करण शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक वेबसाइट का पंजाबी संस्करण शुरू किया गया।

- एक आधिकारिक बयान में कहा गया लोग अब URL www.pmindia.gov.in/pa के जरिए प्रधानमंत्री की पंजाबी भाषा वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- वेबसाइट शुरूआत में केवल अंग्रेजी और हिंदी में शुरू की गयी थी लेकिन अब यह नौ क्षेत्रीय भाषाओं - बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयाली, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगू और पंजाबी में भी उपलब्ध है।

रेस कोर्स रोड' का नाम बदलकर 'लोक कल्याण मार्ग' करने की घोषणा

प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास वाली ' रेस कोर्स रोड' का नाम बदलकर 'लोक कल्याण मार्ग' करने की घोषणा हुई है।

- बीजेपी सांसद और एनडीएमसी सदस्य मीनाक्षी लेखी ने पहले एनडीएमसी में इस सड़क का नाम 'एकात्म मार्ग' रखने का प्रस्ताव दिया था।

केंद्र ने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर नया रूप दिया

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को नया रूप दिया गया है। इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) कर दिया गया है। इसे अगले महीने जारी किया जाएगा।

- अगले साल एक अप्रैल से आईएवाई, पीएमएवाई में सम्मिलित हो जाएगी। नई योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 2019 तक एक करोड़ घर बनाने का है।
- बहरहाल, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने योजना का नाम बदलने का कोई कारण नहीं बताया।
- आईएवाई के तहत सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष (2015-16) के अंत तक 38 लाख घर बनाने का लक्ष्य तय किया था जिसमें से दस लाख मकान तैयार हो गए हैं।

कैबिनेट ने रेल बजट के आम बजट में विलय के प्रस्ताव को दी मंजूरी

देश में अब रेल बजट पेश नहीं होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव को आज हरी झंडी दे दी। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई मोदी कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई।

- कैबिनेट ने आम बजट पेश करने का समय एक महीना आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। अब तक आम बजट फरवरी के अंत में पेश होता रहा है।

2,600 करोड़ रुपये की लागत से 9 राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी

सरकार ने 2,600.31 करोड़ रुपये की लागत से 414 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

- इन सभी परियोजनाओं को इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण ईपीसी प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाएगा।

- ये परियोजनाएं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड और उत्तर प्रदेश की हैं।

नीति आयोग ने 2024 ओलंपिक में 50 मेडल जीतने की योजना बनाई

नीति आयोग ने भारत को 2024 ओलंपिक में 50 मेडल दिलाने के लक्ष्य को लेकर लघु तथा मध्यम से लेकर दीर्घ अवधि की योजना तैयार की है।

- नीति आयोग ने कहा कि यह निराशाजनक है कि दुनिया का दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जिसमें विभिन्न स्पर्धाओं में विश्व स्तर की प्रतिभाएं मौजूद हैं, वह खेलों में चैंपियन नहीं बन सका है।

100 सबसे अमीर लोगों में मुकेश अंबानी की बादशाहत कायम

रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी को लगातार नौवें साल भारत की सबसे धनी हस्ती आंका गया है और उसकी निवल संपत्ति बढ़कर 22.7 अरब डालर हो गई है।

- सनफार्मा के दिलीप सांघवी 16.9 अरब डालर संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं।
- धनी व्यक्तियों पर फोर्ब्स पत्रिका की नई वार्षिक सूची में हिंदुजा परिवार 15.2 अरब डालर की संपत्ति के साथ भारत के धनी लोगों में तीसरे स्थान पर आ गया है।
- भारत की 100 सबसे धनी हस्तियों की सूची में विप्रो के अजीम प्रेमजी एक पायदान खिसककर चौथे स्थान पर आ गए हैं। उनकी संपत्ति 15 अरब डालर आंकी गई है।

अडाणी ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया

अडाणी समूह की इकाई अडाणी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। 648 मेगावाट का यह सौर संयंत्र तमिलनाडु में है।

- इस संयंत्र पर 4,550 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
- यह राज्य सरकार की 2012 में पेश सौर ऊर्जा नीति के तहत 3,000 मेगावाट की सौर बिजली उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का हिस्सा है।

बैंकिंग व अर्थव्यवस्था

एक्सिस बैंक, BHU टीम के बीच बैंकिंग पढ़ाई के लिए हुआ समझौता

निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र की पढ़ाई के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के साथ एक विशेष पाठ्यक्रम चलाने का समझौता किया है।

- एक्सिस बैंक ने कहा है कि बीएचयू के वाणिज्य फैकल्टी के साथ मिलकर बैंकिंग पढाई के लिए डिजाइन और पाठ्यक्रम विकसित करेगा। इसके साथ ही ई-लर्निंग के मापदंडों, उसका ढांचा और पाठ्यक्रम के बारे में भी फैसला किया जाएगा।
- दोनों के बीच इस भागीदारी के तहत वाणिज्य स्नात्कोत्तर एमकॉम, वित्तीय प्रबंधन स्नात्कोत्तर एमएफएम, वित्तीय प्रबंधन स्नात्कोत्तर जोखिम एवं बीमा एमएफएम-आरआई - विदेश व्यापार स्नात्कोत्तर एमएफटी जैसे पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी।
- एक्सिस बैंक ने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत चरणों में की जाएगी। इसका पहला बैच 2016-17 शिक्षा सत्र से शुरू किया जाएगा।

विश्व बैंक करेगा असम में 1000 करोड़ रूपए का निवेश

विश्व बैंक अंतर्देशीय जलमार्गों में सुधार के लिए असम में करीब 1,000 करोड़ रुपये निवेश करेगा।

- केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य के परिवहन मंत्री चन्द्र मोहन पटोवारी को यह जानकारी दी।
- सरकारी सूत्रों ने गुवाहाटी में बताया कि इस धनराशि का इस्तेमाल घाटों सहित अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में किया जाएगा।
- केन्द्रीय मंत्री ने घाटों के पुनर्निर्माण का भरोसा दिलाया जिसके लिए केन्द्र शत प्रतिशत मदद देगा।
- दूसरी ओर असम के सभी जिलों में ड्राइविंग स्कूल स्थापित किया जाएगा।

आरकॉम और एयरसेल के विलय को मंजूरी

रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और एयरसेल के विलय को आरकॉम के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ग्राहकों के आधार के लिहाज से अब यह चौथी सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। नई कंपनी की सम्पत्ति 65,000 करोड़ रूपए की होगी।

- अनिल अंबानी के नेतृत्ववाले एडीएजी समूह की आरकॉम और मलेशिया की मैक्सिस कम्युनिकेशंस बेर्हाड (एमसीबी) की इस साझा इकाई में दोनों भागीदारों की आधे आधे की हिस्सेदारी होगी।

सरकार ने नई सीपीएसई ईटीएफ का प्रबंधन करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की नियुक्ति की

डिपार्टमेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट, वित्त मंत्रालय ने एक नये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के निर्माण और शुभारंभ के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में नियुक्त किया है।

- नई ईटीएफ में सूचिबद्ध सीपीएसई व अन्य कॉर्पोरेट्स के शेयर होंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी भारत की अग्रणी एसेट प्रबंधक है।

गूगल ने स्मार्ट मैसेजिंग मोबाइल एप एलो का शुभारंभ किया

गूगल ने अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्ट मैसेजिंग मोबाइल एप 'एलो' का शुभारंभ किया। एलो को गूगल असिस्टेंट लैस किया गया है।

- इससे उपयोगकर्ता ऑनलाइन चैट कर सकते हैं।
- यह एप्प एंड्रॉइड तथा आईफोन के लिये उपलब्ध अन्य एप्स के तरह का ही एक अन्य एप्प है।

सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएमडी सुशील मुहनोत को हटाया

सरकार ने एक अप्रत्याशित निर्णय के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी सुशील मुहनोत को उनकी सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले हटा दिया।

- मुहनोत 30 सितंबर को सेवानिवृत्ति होने वाले थे।
- सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक आर पी मराठे को तत्काल प्रभाव से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ नियुक्त किया है।

चंडीगढ़ प्रशासन, फ्रांसीसी विकास एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चंडीगढ़ प्रशासन और फ्रांसीसी विकास एजेंसी (AFD) ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी परियोजना और संवहनीय शहरी गतिशीलता के क्षेत्र में 'तकनीकी सहयोग' के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

- समझौता ज्ञापन पर के के जिंदल, सचिव परिवहन, चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय दूतावास में मंत्री काउंसलर फ्रांस के जीन मार्क और फ्रांसीसी विकास एजेंसी के निदेशक निकोलस फॉर्नेज द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

ऐपल ने हैदराबाद की कंपनी टपलजंप को खरीदा

अंतरराष्ट्रीय कंपनी ऐपल ने हैदराबाद के एक स्टार्टअप को कुछ महीने पहले बहुत ही गुप्त तरीके से खरीद लिया है। ऐपल ने इस बात का भी खुलासा नहीं किया है कि उसने भारत के 'टपलजंप' को कितने में खरीदा है।

- टपलजंप में काम करने वाले सभी 16 एंपलॉयी अब ऐपल के स्टाफ में शामिल हो जाएंगे।
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह डील करीब 20 मिलियन डॉलर यानी 27 करोड़ रुपए के आसपास की हुई होगी।

10 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए उबर ने मारुति-एनसीडीसी से मिलाया हाथ

ट्रांसपोर्टेशन ऐप उबर ने मारुति और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसडीसी) के साथ पार्टनरशिप पर साल 2018 तक 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का नया कदम उठाया है।

- उबर इंडिया के प्रेसिडेंट अमित जैन बताया कि Uber SHAAN प्रोग्राम के तहत अनस्किल्ड लोगों को स्किल डेवलपमेंट और ड्राइवर ट्रेनिंग दी जाएगी।

- इसके अलावा, ट्रेनड ट्राइवर्स को कमर्शियल लाइसेंस, व्हीकल फाइनेंसिंग और लीज सॉल्यूशन देने में मदद की जाएगी।
- भारत में उबर के प्लैटफॉर्म के साथ करीब 4 लाख ड्राइवर्स जुड़ चुके हैं। ट्रिप के मामले में अमेरिका के बाद भारत उबर के लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है।

फ़ेडरल बैंक ने कोयम्बटूर में फ़ेडरल स्किल अकादमी की शुरुआत की

फ़ेडरल बैंक ने सीएसआर के अंतर्गत तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दूसरी फ़ेडरल स्किल अकादमी की शुरुआत की।

- अकादमी मिलिंग तथा टर्निंग में सीएनसी मशीन ऑपरेटर सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करेगी जो कि को-इंडिया द्वारा प्रमाणित होगा।
- इस पहल के अंतर्गत वंचित विद्यार्थी भी सफलतापूर्वक अपना कोर्स पूरा करेंगे, और भारत तथा विदेशों में रोजगार के अवसर प्राप्त करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किये

रिजर्व बैंक ने 5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया। इसके अलावा दो अन्य ने अपने प्रमाणपत्र केंद्रीय बैंक को लौटा दिया।

- जिन इकाइयों का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें सिम्को कंसल्टेंट्स, लुंकाड सिक्योरिटीज, राजवीर मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्रिस्टल इन्वेस्टमेंट्स और श्री जया इन्वेस्टमेंट्स एजेंसी शामिल हैं।
- दो एनबीएफसी, टेक्सास रिसोर्सेज तथा विवेक व्यापार ने अपने प्रमाणपत्र सरेंडर किए हैं।

आईसीआईसीआई बैंक सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स लागू करने वाला भारत का पहला बैंक बना

आईसीआईसीआई बैंक सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स लागू करने वाला भारत का पहला बैंक बना गया है।

- सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स के द्वारा ग्राहकों का काम जल्दी हो जाएगा और साथ ही गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जायेगा। इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी।
- फिलहाल बैंक के पास अभी 200 प्रोसेस हैं जिनके कुल ट्रांज़ैक्शन की हिस्सेदारी 10 फीसदी है।
- बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी तक बैंक प्रोसेस की संख्या बढ़ाकर 500 करने के बारे में सोच रहा है, जिससे की ट्रांज़ैक्शन का शेयर 20 फीसदी तक हासिल किया जा सकता है।

सिंगापुर की मदद से हिमाचल में बनेगा स्मार्ट टाऊनशिप

हिमाचल सरकार ने शिमला के समीप जाठिया देवी में एक स्मार्ट इंटेग्रेटिड टाऊनशिप विकसित करने के लिए सिंगापुर सरकार के साथ एक शुरुआती समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- समझौता जापान पर हस्ताक्षर शहरी विकास, नगर नियोजन व आवास मंत्री सुधीर शर्मा की उपस्थिति में हिमुडा तथा एशियन पैसिफिक सिंगापुर एंटरप्राइज के बीच हुए हैं।
- सिंगापुर सरकार की सिंगापुर कोऑप्रेशन एंटरप्राइज के प्रतिनिधियों तथा हिमुडा के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि राज्य की राजधानी के समीप स्मार्ट एकीकृत टाऊनशिप का विकास सरकार की एक महत्वकांक्षी परियोजना है जो इस भारी जनसंख्या वाले शहर पर दबाव को कम करने में मददगार साबित होगा।

एनपीसीआई की बिल पेमेंट सिस्टम के लिए पायलट परियोजना शुरू

नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के लिए 26 भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग इकाइयों के साथ एक पायलट परियोजना शुरू कर दी है।

- पहले चरण में बीबीपीएस बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) जैसी रोजाना उपयोग में आने वाली सेवाओं के भुगतान को कवर करेगा।

सोनी ने 2600 करोड़ में पक्की की टेन स्पोर्ट्स डील

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPN) 2,600 करोड़ रुपये (\$38.5 करोड़) में सुभाष चंद्रा की जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEE) से टेन स्पोर्ट्स को खरीद रही है।

- टेन स्पोर्ट्स के पोर्टफोलियो में टेन वन, टेन वन एचडी, टेन टू, टेन थ्री, टेन गोल्फ एचडी, टेन क्रिकेट और टेन स्पोर्ट्स शामिल हैं।
- नेटवर्क इन चैनलों को पूरे भारत, मालदीव, सिंगापुर, हांगकांग, मध्य पूर्वी और कैरेबियन में संचालित करता है।
- वर्तमान में टेन स्पोर्ट्स का संचालन पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक ताज टेलीविजन लिमिटेड, मॉरीशस और ताज टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया) द्वारा किया जा रहा है।

मोबिक्विक ने 12 बिजली बोर्डों के साथ किया करार

मोबाइल पेमेंट नेटवर्क मोबिक्विक ने आठ राज्यों के 12 बिजली बोर्डों के साथ हाथ मिलाया है जिससे उसके प्लेटफॉर्म से इन राज्यों के बिजली उपभोक्ता अपना बिल चुका सकेंगे।

- कंपनी ने बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, मेघालय, कोलकाता, राजस्थान तथा दमन एवं दीव के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता किया है।
- मोबिक्विक ने यह पहल भुगतान के लिये एक राष्ट्रीय आधार बनाने के उद्देश्य के तहत की है।

गोवा सरकार ने गूगल इंडिया के साथ समझौता किया

गोवा सरकार ने गूगल इंडिया के साथ डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और राज्य भर में एक डिजिटल परिवर्तन संचालित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

- मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर व गूगल इंडिया के उपाध्यक्ष राजन आनन्दन ने समझौते पर हस्ताक्षर किये।

पहली तिमाही में जीडीपी घटकर 7.1%

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून के दौरान अर्थव्यवस्था 7.1 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी है।

- यह दर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (सीएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक है।

अब किसी भी बैंक के एटीएम पर ही मिलेगी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन सुविधा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग का अटूट हिस्सा बन चुके मोबाइल फोन के लिए एक और सुविधा जोड़ दी है। अब ग्राहक किसी भी एटीएम से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर पाएंगे।

- अभी तक ग्राहकों को मोबाइल नंबर पंजीकरण करने के लिए अपने बैंक की होम ब्रांच जाने के लिए कहा जाता था, मगर नई सुविधा के बाद ग्राहक किसी भी एटीएम से ऐसा कर सकते हैं।
- इतना ही नहीं, बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी यह सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है।

डीसीबी बैंक ने भुगतान एप्प 'एमवीजा' लांच किया

डीसीबी बैंक ने भुगतान एप्प 'एमवीजा' लांच किया है जो रिटेल आउटलेट्स पर भुगतान को आसान बनायेगा।

- डीसीबी बैंक भारत का एक निजी क्षेत्र का अनुसूचित बैंक है।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अमेज़न डॉट कॉम के साथ स्मार्ट होम सर्विसेज़ हेतु समझौता किया

दक्षिण कोरिया की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक ने अमेज़न डॉट कॉम के साथ स्मार्ट होम सर्विसेज़ हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- इस समझौते से अमेज़न द्वारा संचालित एलेक्सा वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों पर काम कर सकेगी।
- एलेक्सा अपने स्मार्ट थिंक क्यू हब के साथ घरेलू उपकरणों के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। यह आवाज़ से कंट्रोल होने वाले यंत्रों का निर्माण करेगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 10 सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 10 सीमेंट कंपनियों पर आपस में साठगांठ करने को लेकर 6,700 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

- इन कंपनियों में एसीसी सीमेंट, जयप्रकाश एसोसिएट्स लि., अल्ट्राटेक, सेंचुरी, इंडिया सीमेंट्स, जेके सीमेंट्स, लाफार्ज, रामको, एसीएल तथा बिनानी शामिल हैं।

कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया सरकार मसाला बाँड जारी करने वाली पहली विदेशी सरकार

कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 500 करोड़ रुपये मूल्यवर्ग के मसाला बांड जारी करने के साथ ही ऐसा करने वाली पहली विदेशी सरकार बन गई है।

- मसाला बांड विदेशी खरीदारों के लिए जारी किए रुपया-नामित बांड हैं, जो भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य जारी किये जाते हैं।

इंफोसिस ने सऊदी अरब में आईटी सेवाओं के लिए संयुक्त उद्यम समझौता किया

इंफोसिस ने सऊदी अरब में आईटी सेवाओं के लिए सऊदी प्रेरोगेटिव कंपनी (एसपीसी) के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया है।

- हालांकि इस डील को सऊदी अरब जनरल निवेश प्राधिकरण की मंजूरी मिलना बाकी है।
- इंफोसिस ने सऊदी अरब में इस डील के लिये अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों विप्रो व टीसीएस को पीछे छोड़ा।

मोबिक्विक ने लॉन्च किया वन स्टेप ऑफलाइन पेमेंट 'बबल पिन'

लीडिंग फिनटेच प्लेयर मोबिक्विक ने वन स्टेप ऑफलाइन पेमेंट "बबल पिन" लॉन्च किया है।

- पे-एट-स्टोर पर क्लिक करते ही सिर्फ 60 सेकेंड्स में मोबिक्विक पर इसका पिन जेनेरेट हो जाएगा। पेमेंट के लिए जेनेरेटेड पिन नंबर और अल्फाबेट्स दोनों तरह के होंगे।
- पेमेंट के लिए सभी मोबाइल यूजर्स को जेनेरेटेड पिन को मर्चेन्ट के साथ शेयर करना होगा।
- मोबिक्विक का यह पेमेंट काफी सिक्क्योर होगा व इसमें फोन नम्बर शेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यूजर्स के पास 25000 से ज्यादा पैन इंडिया स्टोर्स में इसे इस्तेमाल करने की सुविधा होगी।

डिजिटल एजुकेशन सॉल्यूशन के लिए राजस्थान-सिसको में पार्टनरशिप

राजस्थान की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूएस बेस टेक्नोलॉजी फर्म "सिसको" के साथ पार्टनरशिप की है। राज्य में डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए यह पार्टनरशिप अहम भूमिका निभाएगी।

- इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल डीटेल्स को अभी तक डिसक्लोज नहीं किया गया।
- सिसको व स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (SIEMAT) के जरिये राज्य में 50,000 घंटों की ट्रेनिंग दी जायेगी।
- SIEMAT के जरिये इस डिजिटल लर्निंग को राज्य के 12 सेंटर्स से जोड़ा जाएगा। इस पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य में कई तरह के इनिशिएटिव को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा।
- राज्य सरकार का मानना है कि इस अनोखे प्रोग्राम के जरिए अर्बन डेवलपमेंट और लोकल इनोवेशन को तेजी लाई जा सकेगी।

भारत-चिली अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) का विस्तार

भारत-चिली अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) के विस्तार के समझौते पर वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया और चिली के राजदूत श्री एन्ड्रेस बार्बे गोंजालेज के मध्य आयोजित बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

- भारत और चिली के मध्य अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) पर इससे पहले 8 मार्च, 2006 को हस्ताक्षर किये गये थे और यह समझौता अगस्त 2007 से लागू हुआ था।
- मार्च 2006 में समाप्त मूल पीटीए में चिली के लिए भारत की प्रस्ताव सूची में 8 डिजिट स्तर पर 10 से 50 प्रतिशत स्तर की मार्जिन ऑफ प्रिफरेंस (एमओपी) के साथ 178 टैरिफ लाइने में शामिल हैं जबकि चिली की भारत के लिए पेशकश सूची में 8 डिजिट स्तर पर 10 से 100 प्रतिशत स्तर की एमओपी के साथ 296 टैरिफ लाइने शामिल हैं।
- विस्तारित पीटीए के तहत चिली ने 30 से 100 प्रतिशत के मध्य एमओपी के साथ 1798 टैरिफ लाइनों पर छूट देने का प्रस्ताव किया है जबकि भारत ने चिली को 10 से 100 प्रतिशत के मध्य एमओपी स्तर पर 8 डिजिट स्तर की 1031 टैरिफ लाइनों पर छूट देने का प्रस्ताव किया है।
- भारत का चिली के साथ निर्यात विविध प्रकार का है और चिली द्वारा प्रस्तावित टैरिफ लाइनों की व्यापक विविधता को देखते हुए इस विस्तारित पीटीए से भारत को काफी लाभ मिलेगा।
- एलएसी देशों में चिली 2015-16 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। वर्ष 2015-16 के दौरान चिली के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

नागपुर में रामदेव के पतंजलि फूड पार्क की आधारशिला रखी

मिहान क्षेत्र में योगगुरु रामदेव द्वारा प्रवर्तित पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क की आधारशिला रखी गई। रामदेव ने कहा कि यह पार्क 230 एकड़ में फैला होगा। इसमें पतंजलि की उत्पादन इकाइयां लगायी जाएंगी और इससे सीधे 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा।

- कंपनी मिहान में एक 1000 करोड़ के फूड पार्क को विकसित करेगी जिसमें नागपुरी संतरे के ज्यूस को पैक करके ब्रांड के रूप में बेचा जायेगा।
- यह कंपनी के हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित प्लांट का पहला विस्तार होगा।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तीसरे चरण को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई।

- योजना 3,600 करोड़ रुपये की कुल प्रोजेक्ट लागत के साथ 'केंद्रीय कार्यक्षेत्र योजना' के रूप में क्रियान्वित की जाएगी।
- हालांकि परियोजना 2660 करोड़ के साथ शुरू की जायेगी तथा बाद में 940 करोड़ की अतिरिक्त सहायता दे दी जायेगी।
- 2660 करोड़ में से, केंद्रीय शेयर 1330 करोड़ होगा और विश्व बैंक से 1330 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) के माध्यम से की जाएगी।

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी को सरकार की हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना संबंधी मानव संसाधन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस एजेंसी का उद्देश्य प्रीमियर संस्थानों के लिए अनुसंधान केंद्रित बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने हेतु जरूरी धन जुटाने में मदद करना है।

- मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि एचईएफए का प्रवर्तन संयुक्त रूप से चिन्हित प्रवर्तक व मंत्रालय करेगा। इसकी अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपये की होगी जिसमें सरकारी हिस्सेदारी 1000 करोड़ रुपये की होगी।
- एचईएफए का गठन पीएसयू बैंक, सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के दायरे में ही विशेष उद्देश्यीय इकाई (एसपीवी) के रूप में किया जाएगा। यह इकाई आईआईटी, आईआईएम व एनआईटी आदि संस्थानों में विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं के विकास व बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 20000 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाएगी।

एसबीआई, पीएनबी व पेटीएम जारी करेंगी टोल टैग

सरकार ने वाहनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैग जारी करने वाली फर्मों में और कंपनियों व इकाइयों को शामिल किया है।

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार एनएचएआई के चेयरमैन राघव चंद्र ने बताया कि अब भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीएफसी बैंक व पेटीएम भी ये टैग जारी करना शुरू करेगी।

सैमसंग का प्रिंटिंग कारोबार खरीदेगी HP

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अपना प्रिंटिंग कारोबार अमेरिकी निजी कंप्यूटर निर्माता एचपी को बेचने जा रही है और यह सौदा 1.05 अरब डॉलर में हुआ है।

- इस अधिग्रहण से 6,500 से अधिक प्रिंटिंग पेटेंट तथा वैश्विक स्तर पर 6,000 कार्यबल एचपी के पास आएंगे।
- सैमसंग के दक्षिण कोरिया में इंजीनियरिंग केंद्र है जबकि वह अमेरिका, भारत, चीन, जापान, रूस, कनाडा, ब्राजील और अन्य देशों में काम कर रही है।

पेयू ने साइट्रस को 870 करोड़ रुपए में खरीदा

ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पेयू ने साइट्रस पे को खरीद लिया है पेयू ने साइट्रस को 870 करोड़ रुपए की मर्जर्स एंड एक्विजिशन कैश डील में खरीदा है।

- भारत की फिनटेक इंडस्ट्री में यह अब तक की सबसे बड़ी एम एंड ए कैश डील है।
- साइट्रस पे पेयू के इंडियन ऑपरेशन का हिस्सा रहेगी। इस मर्जर से पेयू के भारतीय कस्टमर 3 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। इस डील से उम्मीद जताई जा रही है कि 2016 में 15 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे। जिनकी वैल्यू 4.2 अरब डॉलर रहेगी। यह साल-दर-साल 50 फीसदी ग्रोथ रहेगी।
- साइट्रस पे के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर अमरीश राव भारत में पेयू के सीईओ बनेंगे।
- साइट्रस पे फाउंडर जितेंद्र गुप्ता पेयू को क्रेडिट कार्ड पेमेंट के क्षेत्र में लेजीपे के जरिये बढ़ाएंगे।

औद्योगिक निवेश के लिए आंध्र-प्रदेश शीर्ष पर

औद्योगिक निवेश के लिए आंध्र-प्रदेश सभी राज्यों में से सबसे अधिक आकर्षक राज्य के रूप में उभर के सामने आया है पिछले वर्ष के शीर्ष राज्य महाराष्ट्र को तीसरे स्थान पर धकेलते हुए आंध्र-प्रदेश शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।

- राज्य सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट को प्रदर्शित करते हुए कहा कि आंध्र-प्रदेश में पूरे भारत में हुए कुल 1,38,700 करोड़ रुपए के निवेश में से 21,914 करोड़ का निवेश हुआ है। यह 10 करोड़ रुपए प्रति यूनिट के कुल निवेश का 15.8% है। आंध्र-प्रदेश का 2014-15 में देश के निवेश में कुल हिस्सा 8.1% था।
- गुजरात 14.5 फीसदी निवेश के साथ दूसरे तथा महाराष्ट्र 10.9 फीसदी के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

भारत की जीडीपी दर अगले कुछ वर्ष 8 फीसदी रहेगी: एस एंड पी

घरेलू उपयोग में वृद्धि के चलते अगले कुछ वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8 फीसदी रह सकती है। यह अनुमान रेटिंग एजेंसी एस एंड पी ने लगाया है।

- अपनी रिपोर्ट 'APAC इकॉनॉमिक स्नेपशॉट सितंबर 2016' में एस एंड पी ने कहा कि भारत का ढांचागत सुधार एजेंडा मजबूत है और यह इसे वृद्धि की ओर ले जायेगा।

विजया बैंक ने तीन नये एप्प लांच किये

विजया बैंक ने तीन नये इनोवेटिव सूचना प्रौद्योगिकी एप्प लांच किये हैं।

- बैंक के प्रबंध निदेशक किशोर सांसी के अनुसार नये एप्प है – VPAYKWIQ, विजया *99# व V – e कनेक्ट+ .

एडीबी ने चैन्नई – विशाखापट्टनम गलियारे के लिये 631 मिलियन मंजूर किये

एशियाई विकास बैंक ने चैन्नई विशाखापट्टनम औद्योगिक गलियारे के लिये 631 मिलियन डॉलर ऋण मंजूर किया है।

- 2031 तक संपूर्ण होने वाले प्रोजेक्ट की कुल लागत 846 मिलियन डॉलर है। बाकी 215 मिलियन डॉलर की लागत आंध्रप्रदेश सरकार वहन करेगी।

अब ट्विटर पर मिलेगा BSE का अपडेट

देश के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई अपने निवेशकों को शेयर की कीमतों, कंपनी के शेयरों के शुरूआती और बंद भाव और सेंसेक्स की अद्यतन जानकारी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए उपलब्ध कराएगा।

- बीएसई और ट्विटर ने अपनी इस साझेदारी को वित्तीय सूचनाओं को लोकतांत्रिक करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया है। अब निवेशकों को आसानी से स्टॉक मार्केट और स्टॉक संबंधी जानकारी ट्विटर पर मिलने लगेगी।
- बीएसई का वर्ष 2012 से ही ट्विटर हैंडल है लेकिन निवेशकों को इससे लाइव अपडेट नहीं दी जा रही थी।

बीसीसीआई का सहयोगी प्रायोजक बना जनलक्ष्मी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी 'जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज' के साथ तीन साल का करार किया है। बोर्ड ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की।

- इस अनुबंध के तहत जनलक्ष्मी अगले तीन वर्षों के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक साझेदार बन गया जिसके तहत कंपनी स्टेडियम में प्रमुखता से अपने विज्ञापन लगाएगा।

फ्लिपकार्ट के ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ के पार

ई-कारोबार से जुड़ी घरेलू कंपनी फ्लिपकार्ट के पंजीकृत ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गयी है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली कंपनी बन गयी है।

- बेंगलुरु की कंपनी ने उपयोगकर्ताओं का आधार पिछले साल के मुकाबले दोगुना कर लिया है। कंपनी ने पिछले छह महीने में 2.5 करोड़ उपयोगकर्ताओं को जोड़ा है।

राफेल डील को मिली मंजूरी

बार-बार हो रही देरी के बाद आखिर सरकार ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील को मंजूरी दे दी है।

- फ्रांस के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में इस पर दस्तखत हुए।
- यह डील 7.88 अरब यूरो (करीब 58,853 करोड़ रुपये) में हुई है। वायुसेना इन विमानों से हथियारों की डिलीवरी कर पाने में सक्षम होगी।

नियुक्तियां

जिम योंग किम दूसरी बार विश्व बैंक के अध्यक्ष बने

विश्वबैंक ने कहा है कि उसके वर्तमान अध्यक्ष जिम योंग किम इस बहुपक्षीय वित्तीय संगठन में दोबारा अध्यक्ष बनेंगे क्योंकि वह इस पद के लिए नामित एक मात्र प्रत्याशी है।

- कोरियाई- अमेरिकी नागरिक जिम योंग किम को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन व अन्य कई देशों का समर्थन प्राप्त है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित इस संस्था में अध्यक्ष पद के लिये हमेशा से ही किसी अमेरिकी को ही चुना जाता रहा है।

मधुसूदन साहू दीवाला बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त

मधुसूदन साहू को भारतीय शोधन अक्षमता व दीवाला बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

- साहू इस समय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य हैं।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पांच साल के लिए साहू की नियुक्ति को मंजूरी दी है।

ओबामा ने क्यूबा के लिए राजदूत मनोनित किया

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पचास साल के बाद क्यूबा में पहला अमेरिकी राजदूत मनोनित किया है।

- ओबामा ने 2014 से हवाना में कार्यरत सबसे वरिष्ठ अधिकारी जेफरे डी लॉरेंटिस को राजदूत मनोनित किया है।
- डेलॉरेंटिस पहले से ही हवाना में हैं और तथा हवाना में स्थित दूतावास में कार्यरत हैं।

ओ पी सिंह सीआईएसएफ के नये महानिदेशक बने

ओ पी सिंह को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

- 1983 बैच के यूपी काडर के आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह सीआईएसएफ महानिदेशक बनने से पूर्व एनडीआरएफ में बतौर महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे।
- उनका कार्यकाल जनवरी 2020 तक रहेगा।

विजय केलकर भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रमुख नियुक्त

पूर्व पेट्रोलियम सचिव विजय केलकर का निर्वाचन, प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) के प्रेसिडेंट के रूप में हुआ है।

- विजय केलकर ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के स्थान पर यह पद ग्रहण किया है।
- संस्थान की जनरल बॉडी मीटिंग में उनका चुनाव हुआ जो भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

यशवर्द्धन सिन्हा ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त

वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी यशवर्द्धन कुमार सिन्हा को मंगलवार को ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया जो नवतेज सरना का स्थान लेंगे।

- सिन्हा 1981 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है और अभी श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं।
- सरना को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है।

बजट विलय की समीक्षा के लिए मोडली की अध्यक्षता में संसदीय समिति गठित

कांग्रेस सांसद एम वीरप्पा मोडली की अध्यक्षता में, सभी बजटीय सुधारों की समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति गठित की गई है।

- बजट के अलावा यह समिति, विनिवेश नीति की समीक्षा, भारत में बैंकिंग क्षेत्र, आरबीआई की उभरती भूमिका और उसका ढांचा आदि पर भी अध्ययन और समीक्षा करेगी।

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने अजय सिंह

स्पाइसजेट एयरलाइन्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) का अध्यक्ष चुना गया है।

- महाराष्ट्र के जय कोवली मुक्केबाजी संघ के नए सेक्रेट्री जनरल और असम के हेमंत कुमार कलिता निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने गए हैं।
- स्पाइसजेट एयरलाइन्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को 49 मत मिले जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी दिल्ली के रोहित जैनेंद्र जैन को केवल 15 मत ही हासिल हुए। मतदान अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज संघ (एआईबीए) और खेल मंत्रालय के पर्यवेक्षकों की देखरेख में हुए।

अनुराग श्रीवास्तव, जिबूती गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त

वर्तमान में इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के अधिकृत राजनयिक अनुराग श्रीवास्तव को साथ ही साथ जिबूती गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उनका निवास स्थान एडिस अबाबा में होगा।

- जिबूती गणराज्य अफ्रीका में स्थित है। इसकी राजधानी जिबूती सिटी तथा मुद्रा फ्रेंक है।

अरुण गोयल जीएसटी परिषद के अतिरिक्त सचिव नियुक्त

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अरुण गोयल को गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) परिषद में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

- वित्त मंत्री अरुण जेटली इस परिषद के अध्यक्ष हैं। परिषद ही जीएसटी की दर तय करेगी और जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं के बारे में भी फैसला जीएसटी परिषद ही करेगी।
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जीएसटी परिषद में अतिरिक्त सचिव के पद पर गोयल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में इस बात की जानकारी दी गई।
- गोयल 1985 बैच के संघ शासित प्रदेश काडर के आईएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वह मंत्रिमंडल सचिवालय में परियोजना निगरानी समूह में अतिरिक्त सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं।

इंडियन ऑयल के चेयरमैन बने संजीव सिंह

देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन संजीव सिंह होंगे।

- लोक उपक्रम चयन बोर्ड पीईएसबी द्वारा जारी एक सूचना में कहा गया है कि आठ लोगों का साक्षात्कार करने के बाद 56 वर्षीय सिंह को इस पद के लिए चुना गया है।
- अभी वह इंडियन ऑयल में रिफाइनरियों के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। वह बी अशोक का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल मई 2017 में खत्म हो रहा है।

इनाडू के वेंकट बने एबीसी के अध्यक्ष

तेलुगु समाचार दैनिक इनाडू के निदेशक आई. वेंकट को निर्विरोध रूप से 2016-17 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस (एबीसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

- वेंकट मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल (एमआरयूसी) और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) के संस्थापक सदस्यों में एक हैं।
- कोका कोला इंडिया प्रा. लि. के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग एंड कमर्शियल) देबब्रत मुखर्जी एबीसी के उपाध्यक्ष बने हैं।

हिरोशी नाकागावा को इसुजु मोटर्स इंडिया के अध्यक्ष का पदभार

इसुजु मोटर्स इंडिया प्रा. लि. (आईएमआई) के अध्यक्ष का पदभार हिरोशी नाकागावा को दिया गया है।

- आईएमआई के पूर्व अध्यक्ष हिरोयासू मियूरा को आईईबीसीआई के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार सौंपा गया है।
- हिरोशी नाकागावा ने मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, जापान में 35 साल बिताए हैं।
- वे प्रमुख इसुजु बाजारों में इसुजु व्यापार संभाग से पिछले 20 सालों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं।

नादिया मुराद को संयुक्त राष्ट्र का सद्भावना दूत बनाया गया

इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की कैद में प्रताड़नाएं झेलने के बाद वहां से बच निकलने में सफल रही एक इराकी युवती नादिया मुराद को संयुक्त राष्ट्र का सद्भावना दूत बनाया गया है।

- नोबेल शांति पुरस्कार के लिये नामित नादिया को मानव तस्करी के चंगुल से बचने वाले लोगों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र का सद्भावना दूत बनाया गया है।

अतुल कुमार गोयल बने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक

सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अतुल कुमार गोयल को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है।

- गोयल की नियुक्ति 15 सितंबर से मान्य होगी। उन्हें इस पद पर तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है।

वीके शर्मा को एलआईसी के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी के प्रबंध निदेशक वीके शर्मा ने कंपनी के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है।

- उन्होंने एलआईसी के स्थान लिया जिन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया।
- शर्मा 2013 से कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं।

ऐश्वर्या आर धनुष संयुक्त राष्ट्र महिला सद्भावना राजदूत नियुक्त

फिल्म निर्देशक व रजनीकांत की पुत्री ऐश्वर्या आर धनुष को भारत में संयुक्त राष्ट्र महिला सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है।

- उन्हें एक विशेष समारोह में पद प्रदान किया गया।
- ऐश्वर्या को उन्हें लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

अशोक चावला बनाए गए टेरी के नए कुलपति

टीईआरआई (टेरी) ने पूर्व वित्त सचिव अशोक चावला को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दिया है।

- टेरी ने यौन उत्पीड़न के आरोपी आरके पचौरी के साथ नाता तोड़ते हुए चावला को पचौरी की जगह नियुक्त करने की घोषणा की।

अशोक कुमार प्रधान ने एसबीटी के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला

स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर (एसबीटी) के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में अशोक कुमार प्रधान ने अपना कार्यभार संभाल लिया है।

- उन्होंने एस आदिकेश्वरन के स्थान पर यह पद ग्रहण किया है जिन्हें, हाल ही में एक विवाद के कारण हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- प्रधान, जो उड़ीसा में कटक से सम्बंधित हैं, उन्होंने बिकानेर और जयपुर स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में 1985 में अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत की थी।

अनुराधा राव एसबीआई म्यूचुअल फंड की नई एमडी, सीईओ नियुक्त

एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अनुराधा राव को नई प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।

- इससे पहले वह बैंक में व्यक्तिगत बैंकिंग की मुख्य महाप्रबंधक के तौर पर काम कर चुकी है।

दीप कुमार उपाध्याय भारत में फिर से नेपाल के राजदूत नामित

नेपाल ने दीप कुमार उपाध्याय को भारत में अपना दूत नियुक्त किया।

- सिंह दरबार में नए प्रधानमंत्री प्रचंड के कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में उपाध्याय को भारत के लिए राजदूत और मुख्य सचिव लीला मणि पौडेल को चीन के लिए नामित किया गया।
- करीब चार महीने पहले उन्हें सरकार से असहयोग करने और सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बुला लिया गया था।

पुनीत गोयनका चुने गए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष

डायरेक्टर्स लेवल की बैठक में पुनीत गोयनका (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज) को आईबीएफ बोर्ड के नए फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया।

- इसके अलावा आईबीएफ बोर्ड ने श्री रजत शर्मा (अध्यक्ष, इंडिया टीवी), श्री एनपी सिंह (सीईओ, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क), श्री सुधांशु वत्स (ग्रुप सीईओ, वायाकॉम 18), श्री के. माधवन (प्रबंध निदेशक, एशियानेट कम्युनिकेशंस) और श्री के.वी.एल. नारायण राव (कार्यकारी उपाध्यक्ष, एनडीटीवी) को एक वर्ष की अवधि के लिए फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

राव को तमिलनाडु तथा कोहली को मप्र का अतिरिक्त प्रभार

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव को तमिलनाडु तथा गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

- राष्ट्रपति भवन द्वारा आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार सी. विद्यासागर राव को के. रोसैय्या, जिनका कार्यकाल 30 अगस्त को समाप्त हुआ है, के स्थान पर तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
- ओपी कोहली को रामनरेश यादव, जिनका कार्यकाल 7 सितंबर को समाप्त होगा, के स्थान पर मप्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

के.के. अग्रवाल आईएमए के अध्यक्ष बने

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के मौजूदा मानद महासचिव जनरल डॉ. के.के. अग्रवाल को सर्व सम्मति से साल 2016-17 के लिए आईएमए का अध्यक्ष चुना गया है।

- आईएमए के 1,650 से भी अधिक सक्रिय स्थानीय शाखाओं के माध्यम से देश भर में 2,53,000 से अधिक डॉक्टर सदस्य हैं।

रोहतक विश्वविद्यालय में कुश्ती डायरेक्टर बनी साक्षी मलिक

हरियाणा सरकार ने रियो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक को रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कुश्ती डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की।

- इसकी घोषणा करते हुए हरियाणा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि साक्षी को उनके विशेष कोष में से 21 लाख रुपये और 500 वर्ग गज का प्लॉट भी दिया जायेगा।

सचिन तेंदुलकर केरल के एंटी-लिकर कैम्पेन के ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को केरल सरकार द्वारा एंटी-लिकर (मद्यपान निषेध) एवं एंटी ड्रग कैम्पेन का ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त किया गया है।

- आबकारी एवं श्रम मंत्री टी पी रामकृष्णन के अनुसार, राज्य में यह कैम्पेन शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ लोगों के बीच जागरूकता पैदा फैलाने के लिए सरकार के कदम का एक हिस्सा है।

ईरान और ब्रिटेन के एक दूसरे देशों में दूतावास खुले

ईरान और ब्रिटेन के संबंधों के बेहतर हो जाने की भूमि प्रशस्त हो जाने के बाद दोनों देशों ने तेहरान और लंदन में अपने राजदूतों को वापस नियुक्त किया है।

- वर्ष 2011 में ईरान और ब्रिटेन के संबंध उस समय टूट गये थे जब ईरान के आंतरिक मामलों में ब्रिटेन के हस्तक्षेप के कुछ विरोधी तेहरान में ब्रिटेन के दूतावास में प्रविष्ट हो गये थे।
- कतर तथा यमन के लिए ब्रिटेन के पूर्व राजदूत निकोलस होपटोन अब तेहरान में राजदूत होंगे।

अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एंबेस्डर बने जॉन अब्राहम

बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर जॉन अब्राहम को अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म का ब्रांड एंबेस्डर बनाया गया है।

- राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वायाकॉम 18 की मदद से बॉलीवुड के इस एक्शन स्टार को टूरिज्म का ब्रांड एंबेस्डर बनाया है।
- इस मौके पर जॉन ने कहा, 'यहां के हर राज्य की खूबसूरती, उसके इतिहास और संस्कृति में एक निराली बात है।

पूर्व आईएस अधिकारी जे सत्यनारायण यूआईडीएआई के अंशकालिक प्रमुख नियुक्त

पूर्व आईएस अधिकारी जे सत्यनारायण को 6 सितम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई का अंशकालिक चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। यूआईडीएआई आधार नंबर जारी करता है।

- इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणि द्वारा 2014 में इस्तीफे के बाद से यह पद रिक्त है।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सत्यनारायण की यूआईडीएआई के अंशकालिक चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
- सत्यनारायण आंध्र प्रदेश कैडर के 1977 बैच के आईएस अधिकारी हैं। वह इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
- उनके अलावा प्रौद्योगिकीविद राजेश जैन और आनंद देशपांडे को यूआईडीएआई का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।

पीएनबी ने विराट कोहली को ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया है।

- बैंक ने बयान में कहा कि पीएनबी को पूर्ण वैश्विक बैंक के रूप में देखा जाता है।
- इस अवसर पर विराट ने कहा कि पीएनबी मेरा अपना बैंक है और पिछले 16 सालों से मैं इसका ग्राहक हूँ।

अल्जीरिया में सतबीर सिंह होंगे भारत के अगले राजदूत

वर्तमान में, मंत्रालय में पदासीन अपर सचिव सतबीर सिंह को लोकतांत्रिक गणराज्य अल्जीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।

- 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के जल्द ही पद ग्रहण करने की संभावना है।
- अल्जीरिया, आधिकारिक तौर पर लोकतांत्रिक गणराज्य अल्जीरिया, भूमध्य सागर के तट पर उत्तरी अफ्रीका में एक संप्रभु देश है। इसकी राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर अल्जीयर्स है। इसकी मुद्रा दिनार है।

सीके असनानी भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड के सीएमडी बने

सीके असनानी ने परमाणु ऊर्जा विभाग के एक उपक्रम, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

- असनानी उस्मानिया विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियर है।
- वर्तमान कार्यभार से पहले वह इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, मुंबई के निदेशक (तकनीकी) थे।
- असनानी पहले परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद के साथ जुड़े थे।
- यूसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है।

जयंत पुरुषोत्तम गोखले को सिंडिकेट बैंक के निदेशक नियुक्त

जयंत पुरुषोत्तम गोखले को सिंडिकेट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- केंद्र सरकार ने तीन साल की अवधि के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में गोखले को नियुक्त किया है।
- उनकी नियुक्ति बैंक के बोर्ड में शामिल होने से पहले एलआईसी म्युचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड से उनके इस्तीफा देने के अधीन है।
- सिंडिकेट बैंक भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों में से एक है। बैंक का मुख्यालय मणिपाल, कर्नाटक में स्थित है।

मेक्सिको ने दक्षिण भारत में पहली बार वाणिज्य दूतावास नियुक्त किया

मेक्सिको ने चेन्नई में दक्षिण भारत का अपना पहला वाणिज्य दूतावास गठित किया है जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सेवाएं देगा।

- यह भारत में लैटिन अमेरिकी देश का मुंबई और कोलकाता के बाद तीसरा वाणिज्य दूतावास है।
- श्री गोविन्दराज टेक्सटाइल्स के प्रबंध निदेशक रामकुमार वरदराजन को मानद दूत नियुक्त किया गया है।
- मेक्सिको लैटिन अमेरिका के लिए भारत के निर्यात के शीर्ष गंतव्य के रूप में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। मैक्सिको के लिए भारत का निर्यात 2015-16 में 2.8 अरब डॉलर था।

बेकीतिज्ञान सागिनतायेव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री नियुक्त

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव ने बेकीतिझान सागिनतायेव को कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है।

- नूरसुल्तान नजरबायेव ने 8 सितम्बर को मंत्रिमण्डल में भारी फेरबदल किया था।
- पूर्व प्रधानमंत्री करीम मसिमोव को बर्खास्त करके पहले उप प्रधानमंत्री बेकीतिझान सागिनतायेव को प्रधानमंत्री किया गया है।

विद्या बालन को समाजवादी पार्टी ने बनाया 'ब्रांड एम्बेसडर'

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने मशहूर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन को समाजवादी पेंशन योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।

- विद्या बालन पहले केंद्र सरकार की घर-घर शौचालय मुहिम का हिस्सा भी रह चुकी हैं।
- समाजवादी पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 50 लाख महिलाओं को हर महीने 500 रुपये का पेंशन देती है।

105 साल की कुंवर बाई का स्वच्छ भारत अभियान के शुभंकर के लिए चयन

अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनवाने वाली 105 साल की महिला कुंवर बाई को स्वच्छ भारत अभियान के शुभंकर के लिए चयनित किया गया है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें 17 सितंबर को स्वच्छता दिवस के मौके पर दिल्ली में सम्मानित करेंगे।
- कुंवर बाई ने अपने घर में शौचालय बनाने के लिए 8-10 बकरियां बेंची थीं। इसके बाद उन्होंने अपने घर में बनाए गए शौचालयों को कुछ अन्य ग्रामीणों को दिखाना शुरू किया। साथ ही उन्हें इसके महत्व के बारे में जानकारी दी।

अनूप कुमार शर्मा ने संभाला शिपिंग कॉरपोरेशन के सीएमडी का प्रभार

अनूप कुमार शर्मा ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का प्रभार संभाल लिया है।

- वह तीन वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे।
- देश की अग्रणी जहाजरानी कंपनी भारत से समुद्री मार्ग से भेजे जाने वाले सामानों के एक-तिहाई हिस्से की लदान व ढुलाई करती है और जहाजरानी व्यवसाय के लगभग सभी क्षेत्रों में वह परिचालन करती है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार के लिए सेवाएं देती है।

यूपी सरकार ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किसान बीमा योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी किसान सर्वहित दुर्घटना बीमा योजना (मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना) का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 14 सितम्बर 2016 को मुख्यमंत्री आवास पर की।

- नवाजुद्दीन यूपी की मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना से सम्बन्धित सरकार द्वारा प्रदत्त लाभों को जनता तक पहुंचाएंगे।
- इससे पहले समाजवादी पेंशन योजना हेतु अभिनेत्री विद्या बालन को एम्बेसडर बनाया जा चुका है।

अलका सिरोही को UPSC चेयरमैन नियुक्त किया गया

पूर्व आईएस अधिकारी अलका सिरोही को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह दीपक गुप्ता की जगह लेंगी जिनका कार्यकाल 20 सितम्बर को खत्म हो रहा है।

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 21 सितंबर से अलका को यूपीएससी प्रमुख के पद पर काम करने के लिए नियुक्त किया है।
- वह इस समय यूपीएससी में सदस्य हैं।
- आदेश के अनुसार नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए या तीन जनवरी, 2017 को सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल पूरा होने तक, इनमें से जो भी पहले आए, के लिए की गयी है।
- केंद्र ने आयोग के मौजूदा सदस्यों में से प्रमुख की नियुक्ति की परंपरा से पहली बार हटते हुए नवंबर, 2014 में गुप्ता को यूपीएससी का प्रमुख नियुक्त किया था।

बीईएल की पहली महिला निदेशक बनीं आनंदी रामलिंगम

रक्षा उपकरण बनाने वाली सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने आनंदी रामलिंगम को नया निदेशक (मार्केटिंग) नियुक्त किया है। श्रीमती रामलिंगम की नियुक्ति 16 सितंबर से ही प्रभावी हो चुकी है।

- श्रीमती रामलिंगम पूर्णकालिक निदेशक हैं। इस नियुक्ति के साथ ही कंपनी में छह पूर्णकालिक निदेशक हो गये हैं।

मल्लिकार्जुन राव सिंडिकेट बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त

एस एस मल्लिकार्जुन राव को सिंडिकेट बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।

- राव अभी तक ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स में महाप्रबंधक के पद पर थे।
- उन्होंने अपना कैरियर 1985 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में किया था। वे 31 साल से प्रोफेशनल बैंकर हैं।

मोनिका कपिल मोहता बनी स्वीडन की राजनयिक

मोनिका कपिल मोहता जो कि मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत है, को स्वीडन में भारत की अगली राजनयिक के पद पर नियुक्त किया गया है।

- इससे पहले वह पौलैंड व लिथुआनिया में राजदूत रह चुकी है।
- उन्हें ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कंबोडिया, तथा पूर्व तिमोर से राजनितिक, तथा द्विपक्षीय संबंधों को देखने का कार्यभार दिया गया है।

भारत में विश्व बैंक के निदेशक बनें जुनैद अहमद

जुनैद अहमद को भारत में विश्व बैंक का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अहमद को ओन्नो रूल की जगह यह कार्यभार दिया गया है जिनका चार साल का कार्यकाल पूरा हो गया है।

- बांग्लादेश के नागरिक अहमद इससे पहले विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जिम योंग किम के चीफ ऑफ स्टाफ थे।
- अहमद एक अर्थशास्त्री है। उन्होंने स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पी एच डी तथा हार्वर्ड से लोक प्रशासन में मास्टर्स किया है।

अजय शिर्के फिर चुने गए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव

अजय शिर्के को दोबारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का सचिव चुना गया। बोर्ड की 87वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में वह निर्विरोध सचिव चुने गए।

- इस पद के लिए किसी और ने आवेदन नहीं किया था। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।
- जुलाई में ठाकुर के बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने के बाद शिर्के को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का चैयरमैन चुने जाने के बाद ठाकुर ने अध्यक्ष पद संभाला था।
- शिर्के महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) के अध्यक्ष भी हैं।

एमएसके प्रसाद बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष बने

एमएसके प्रसाद को बोर्ड की 87वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में बीसीसीआई ने पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज एमएसके प्रसाद की अगुआई में पांच सदस्यीय चयन समिति की घोषणा कर दी है।

- प्रसाद चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में संदीप पाटिल की जगह लेंगे।
- देवांग गांधी, जतिन परांजपे, गगन खोडा और सरनदीप सिंह चयन पैनल के अन्य सदस्य होंगे।
- पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष बरकरार रखा गया है।

नवतेज सरना अमेरिका में भारतीय राजदूत

ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त नवतेज सरना को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वह अमेरिका में अरुण सिंह की जगह लेंगे जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

- भारतीय विदेश सेवा के 1980 बैच के अधिकारी सरना जनवरी में लंदन में नियुक्ति से पहले विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) के रूप में कार्यरत थे।

सरकार ने मौद्रिक नीति समिति के तीन सदस्यों को नियुक्त किया

सरकार ने नीतिगत दर निर्धारण के लिए गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तीन सदस्यों का चयन कर लिया है।

- सरकार ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रफेसर चेतन घाटे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की निदेशक पमी दुआ तथा आईआईएम-अहमदाबाद के रवीन्द्र एच ढोलकिया को एमपीसी का सदस्य बनाया है।
- इन सभी को चार सालों के लिए या अगले आदेशों तक के लिये नियुक्त किया गया है।

मोहन शांतनागौदर केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

न्यायमूर्ति मोहन शांतनागौदर ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

- केरल के राज्यपाल पी सतशिवम ने उन्हें राजभवन में शपथ ग्रहण करायी।

गिरीश चंद्र गुप्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

न्यायमूर्ति गिरीश चंद्र गुप्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने राजभवन में उन्हें शपथ ग्रहण करायी।
- न्यायमूर्ति गिरीश चंद्र गुप्ता ने मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर का स्थान ग्रहण किया है।

पुरस्कार

इसरो, कैटरीना, जूही चावला को प्रियदर्शिनी ग्लोबल पुरस्कार

बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और बॉलीवुड अभिनेत्रियों कैटरीना कैफ और जूही चावला को प्रियदर्शिनी ग्लोबल पुरस्कार 2016 से सम्मनित किया जायेगा।

- एक सामाजिक-सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन प्रियदर्शिनी अकादमी द्वारा स्थापित पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता, विभिन्न देशों इसराइल, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन से है।
- प्रियदर्शिनी पुरस्कार अपने संबंधित क्षेत्रों में योगदान के लिए हस्तियों और संगठनों को दिया जाता है।

ऑस्कर लाइब्रेरी का हिस्सा बनी 'सनराइज', 'पार्चर्ड' की कहानी

आदिल हुसैन अभिनीत फिल्मों- 'सनराइज' और 'पार्चर्ड' की पटकथा को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की लाइब्रेरी में संग्रहित किया गया है।

- दिल्ली के रहने वाले अभिनेता ने मार्गरेट हैरिक लाइब्रेरी ऑफ द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज से प्राप्त पत्र को साझा किया।
- मार्गरेट हैरी लाइब्रेरी कला अनुसंधान व मोशन पिक्चर के इतिहास और उसकी कला तथा उद्योग के रूप में विकास के प्रति समर्पित है।

- साल 1928 में स्थापित यह लाइब्रेरी अब बेवर्ली हिल्स में है। इसका इस्तेमाल सालभर विद्यार्थियों, विद्वानों, इतिहासकारों और फिल्म उद्योग से जुड़े पेशेवर लोगों द्वारा किया जाता है।
- 'सनराइज' को पार्थो सेन गुप्ता ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में एक दुखी पिता इंस्पेक्टर जोशी की कहानी को दिखाया गया है, जो अपनी बेटी अरुणा की तलाश में हैं। अरुणा का छह साल की उम्र में अपहरण हो जाता है।

मशहूर वायलिन वादक उत्तम सिंह 'लता मंगेशकर पुरस्कार' के लिए चुने गए

लता मंगेशकर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिये इस साल मशहूर संगीतकार और वायलिन वादक उत्तम सिंह को महाराष्ट्र सरकार की ओर से नामित किया गया है।

- पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्राफी और 500,000 रुपये नकद प्रदान किया जाता है।
- महाराष्ट्र सरकार भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में साल 1992 से हर साल संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले को यह पुरस्कार प्रदान करती है।

भारत की तरफ से तमिल फिल्म 'विसरनाई' को मिली ऑस्कर में एंट्री

भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री के तौर पर एकेडमी अवॉर्ड्स 2017 में फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में तमिल फिल्म 'विसरनाई' को भेजा जा रहा है।

- विसरनाई के निर्देशक वेन्नीमारन और प्रोड्यूसर धनुष हैं। फिल्म प्रवासी कामगारों पर पुलिस की निर्दयता पर आधारित है।
- विसरनाई (पूछताछ) फिल्म का अधिकांश हिस्सा कोयम्बटूर के ऑटो ड्राइवर एम. चंद्रकुमार के नॉवेल 'लॉक अप' पर आधारित है।

पहला जेसी ओवेंस अवार्ड मरणोपरांत मुहम्मद अली को

पहली बार आयोजित किये जाने वाले ओवेंस अवार्ड 2016 ओलंपिक विजेता मोहम्मद अली को मरणोपरांत दिया जायेगा।

- यह पुरस्कार ओवेंस, जो कि 1936 ओलंपिक, बर्लिन में स्वर्ण पदक विजेता थे, की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जायेगा जो समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।
- यह पुरस्कार ओवेंस के प्रपोत्र मार्लिन डोर्त्च द्वारा प्रदान किया जायेगा।

राईट लाइवलीहुड अवार्ड्स-2016 की घोषणा की गयी

वर्ष 2016 के राईट लाइवलीहुड अवार्ड्स की स्वीडन स्थित स्टॉकहोम में घोषणा की गयी।

इस वर्ष के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता हैं:

- सीरिया सिविल डिफेन्स (द व्हाइट हेल्मेट्स)
- मिन्न के मोज़न हसन एवं नज़रा (नारीवादी अध्ययन के लिए)
- रूस की स्वेतलाना गनुशिकना
- तुर्की का समाचार-पत्र कमहुरियत

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को समावेशी बीमा के लिए चार पुरस्कार

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने स्काँच समूह की ओर वर्ष 2016 के लिए समावेशी बीमा के लिए चार पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

- बैंक का मुख्यालय धारवाड़ में स्थित है। स्काँच समूह के अध्यक्ष समीर कोचर द्वारा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के प्रमुख एस रवींद्रन को हैदराबाद में पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

किरण मजूमदार शॉ को फ्रेंच सम्मान

बायोकाँन की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ को विश्व स्तर पर उनके उत्कृष्ट योगदान और बायोसाइंसेज और अनुसंधान के क्षेत्र के लिए समर्पण के लिए 'नाइट ऑफ़ द नेशनल आर्डर ऑफ़ द फ्रेंच लीजन ऑफ़ ऑनर' नियुक्त किया गया है।

- 'नाइट ऑफ़ द नेशनल आर्डर ऑफ़ द फ्रेंच लीजन ऑफ़ ऑनर' विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान हेतु सर्वोच्च फ्रेंच सम्मान है।

रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने जीता स्वर्ण पदक

अंतर्राष्ट्रीय कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस में आयोजित नौवे सैंड स्क्लप्चर चैंपियनशिप द मैजिकल वर्ल्ड आफ सैंड-2016 प्रतियोगिता में 'महात्मा गांधी-विश्व में शांति' नामक प्रतिमा बनाकर पिपुल्स च्वाँइस पुरस्कार जीता है।

- पटनायक ने 15 फीट ऊंची आकृति के लिये स्वर्ण पदक भी जीता है।

विजया बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

विजया बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (क्षेत्र सी) के अंतर्गत दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है।

- राष्ट्रपति भवन सभागार में आयोजित पुरस्कार समारोह में विजया बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किशोर सांसी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा यह पद स्वीकार किया।

मलयालम आलोचक एम लीलावती को मोहनम सुवर्ण मुद्रा पुरस्कार

मशहूर मलयालम आलोचक एम लीलावती को मोहनम सुवर्ण मुद्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कहानीकार एन मोहनन की याद में दिया जाता है।

- इसमें एक गोल्ड मेडल शामिल है।

- इसके पिछले विजेता ज्ञानपीठ विजेता ओएनवी कुरूप थे।

केनरा बैंक को इन एंड ब्रेडस्ट्रीट पुरस्कार

केनरा बैंक प्राथमिक क्षेत्र ऋण व सर्वश्रेष्ठ रिटेल ग्रोथ के चलते इन एंड ब्रेडस्ट्रीट पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है।

- पुरस्कार मुंबई में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक हरिदीश कुमार बी को दिया गया।
- केनरा बैंक एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाला बैंक है जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में है। इसे 1906 में मंगलौर में स्थापित किया गया था, तथा यह देश के सबसे पुराने बैंकों में से एक है।

वेनिस फिल्म समारोह में फिलीपींस की फिल्म को टॉप पुरस्कार

लव डियाज निर्देशित फिलीपींस की फिल्म 'द वुमेन हू लेफ्ट' को वेनिस फिल्म समारोह में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है।

- यह फिल्म स्कूल टीचर के बदले की कहानी बयान करती है जिसे एक ऐसे अपराध के लिये जेल हो गई जो उसने किया ही नहीं था।
- 73वें वेनिस फिल्म समारोह में कुल 20 फिल्मों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई।

गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार से कलाकार सम्मानित

ओडिसी कलाकारों के नाम पर रखे गए पांच दिवसीय 22वें प्रसिद्ध गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार समारोह का समापन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की प्रस्तुति के साथ रवींद्र मंडप सभागार में हुआ।

- लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए वर्ष 2016 के गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार से झरना दास (सिनेमा) और गुरु किशोर कुमार मोहंती (ओडिसी) को सम्मानित किया गया।
- असाधारण परिश्रम और सिद्धि के लिए गुरु केलुचरण महापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान 2016 से राजीव भट्टाचार्य (ओडिसी), मधुस्मिता मोहंती (ओडिसी), पी प्रवीण कुमार (भरतनाट्यम) और रूपक कुमार परिदा (ओडिसी गायन) को सम्मानित किया गया।

जेलियांग को मलेशिया में पैन्कोर डायलाग अवार्ड

नगालैंड के मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग ने मलेशिया में 'पैन्कोर डायलाग अवार्ड 2016' ग्रहण किया। उन्हें ये पुरस्कार राज्य में पर्यावरण संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए दिया गया है।

- विश्व के अलग-अलग भागों के नेताओं, विद्वानों और विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में उन्हें ये पुरस्कार कल शाम एक कार्यक्रम में मलेशिया के इपोह शहर में दिया गया।
- जेलियांग को यह पुरस्कार आयोजकों – इंस्टिट्यूट दारुल रुद्जुआन और मलेशियाई सरकार द्वारा दिया गया।

ओडिशा को 9वां वैश्विक कृषि लीडरशिप अवार्ड 2016

नई दिल्ली में ताज पैलेस पर कृषि लीडरशिप समीति में कृषि विकास में महत्वपूर्ण हितधारकों की राष्ट्रीय स्तर की सभा पर ओडिशा को 9वां वैश्विक कृषि लीडरशिप अवार्ड 2016 दिया गया।

- खाद्य एवं कृषि भारतीय समिति (ICFA) ने कृषि के विकास और ग्रामीण समृद्धि लाने की दिशा में प्रयास के लिए ओडिशा को बेस्ट कृषि राज्य-2016 के पुरस्कार से नवाज़ा है।
- कृषि, मत्स्य व पशु संसाधन मंत्री प्रदीप महारथी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

जैकी चैन को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर

लोकप्रिय अभिनेता जैकी चैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।

- 'अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस' ने इसकी घोषणा की। जैकी ने आठ साल की उम्र में फिल्मों में पदार्पण किया था।

एमसीसी के मानद आजीवन सदस्य बनाये गये जहीर खान

पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) का मानद आजीवन सदस्य बनाया गया है। वह यह सम्मान पाने वाले 24वें भारतीय क्रिकेटर हैं।

- जहीर पिछले कुछ सप्ताह में यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। पिछले महीने वीरेंद्र सहवाग को भी मानद आजीवन सदस्य बनाया गया था। इस सूची में सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर भी हैं जिन्हें पिछले सालों में शामिल किया गया था।
- जहीर ने भारत के लिये 92 टेस्ट मैच खेले तथा 32-94 की औसत से 311 विकेट लिये।
- इसके अलावा 37 वर्षीय जहीर ने 200 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 29.34 की औसत से 282 विकेट लिये।

वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को घोषित किया संत

वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को आज औपचारिक तौर पर संत की उपाधि से नवाजा गया।

- मदर टेरेसा को संत की उपाधि उनकी 19वीं पुण्यतिथि से एक दिन पहले दी गई। अब उन्हें संत मदर टेरेसा के नाम से जाना जाएगा।
- भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए खास तौर से बेटीकन गए हैं।

सोनितपुर जिले को 'साक्षर भारत पुरस्कार'

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (NLMA) के अनुसार असम के सोनितपुर जिले को साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अपने प्रयासों को के लिये 'साक्षर भारत पुरस्कार' के लिए चुना गया है।

- पुरस्कार सितंबर 8 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा जिसमें एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र शामिल है।
- दो जिलों का देश भर में इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है और वे सोनितपुर और छत्तीसगढ़ का सरगुजा हैं।
- राज्यों में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार के लिए चुना गया है।

जेएसएस मलप्पुरम को यूनेस्को साक्षरता अवार्ड

यूनेस्को द्वारा साक्षरता के क्षेत्र में विशिष्ट काम के लिए दिए जाने वाला यूनेस्को कंप्यूथियस पुरस्कार 2016 के लिए भारत में केरल राज्य के एक संस्थान जन शिक्षण संस्थान, मल्लापुरम को दिया गया है।

- इस संस्थान ने विशेष रूप से ब्रेल के मैटिरियल और टॉकिंग पेन के माध्यम से नई-नई चीजें लोगों को साक्षरता बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराई हैं।
- संस्थान को यह पुरस्कार आठ सितंबर को यूनेस्को के मुख्यालय, पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दिन दिया जाएगा।
- चीन द्वारा प्रायोजित पुरस्कार में \$ 20,000, डिप्लोमा, और एक रजत पदक शामिल हैं।

ऋषिकेश मलिक को सरला अवार्ड

प्रसिद्ध उड़िया कवि डॉ ऋषिकेश मलिक को उनकी उत्कृष्ट कविता के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार के 37 वें संस्करण के साथ सम्मानित किया जाएगा।

- सरला पुरस्कार समिति ने घोषणा की कि 5 लाख रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र वाला वार्षिक पुरस्कार उनकी कविता "जेजे देखी नाथिबा भारत" के लिए मलिक को प्रदत्त किया जाएगा।

लोनावाला फिल्म फेस्टिवल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने बेस्ट एक्टर

पहले लोनावाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (LIFFI) में नवाजुद्दीन सिद्दीकी व तनिष्ठा चटर्जी को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अनंत महादेवन को 'रफ बुक' के लिये मिला।

- जहां नवाजुद्दीन की "मांझी - माउंटेन मैन" में वास्तविक जीवन के हीरो दशरथ मांझी के संघर्ष को चर्चा में लाने के लिए सराहना की गई, वहीं तनिष्ठा द्वारा एक शिक्षक के चित्रण ने LIFFI जूरी का दिल जीत लिया।
- तनिष्ठा चटर्जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भागिरथी बाई कदम के साथ साझा किया जिन्होंने असमी भाषा की फिल्म 'स्केअर क्रो' में शानदार अभिनय किया था।

अंजुम चोपड़ा को एमसीसी की आजीवन सदस्यता

भारत की पूर्व महिला कप्तान अंजुम चोपड़ा को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है।

- वह एमसीसी की प्रतिष्ठित सदस्यता हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है।
- अंजुम ने भारत की तरफ से 12 टेस्ट, 127 वनडे और 18 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट मैचों में 548 रन जिसमें 4 अर्धशतक जबकि वनडे में 2856 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं।

डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित हुई मैरीकॉम

लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज एम सी मैरीकॉम को नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू) ने खेलों में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है।

- 85 वर्षीय रोज मिलान बैथ्यू को भी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वे यूपीएससी की पहली महिला चेयरपर्सन हैं।
- उन्हें 29 मार्च 2017 को डिग्री दी जायेगी।
- मैरीकॉम को उनके खेलों में असाधारण प्रदर्शन के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है।

के जी जॉर्ज ने वर्ष 2015 का जे सी डेनियल अवार्ड जीता

प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक के जी जॉर्ज को प्रतिष्ठित जे सी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के कारण दिया गया।

- यह पुरस्कार उन्हें राज्य फिल्म अवार्ड कार्यक्रम के दौरान अक्टूबर 2016 में पलाक्काड में प्रदान किया जायेगा।
- उन्होंने वर्ष 1975 में फिल्म स्वप्नादानम से पदार्पण किया, इस फिल्म को मलयालम भाषा की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला।
- उन्होंने यवनिका, इराकल व अदमिंते वारियल जैसी फिल्मों के लिये 9 राज्य फिल्म अवार्ड भी जीते हैं।
- यह पुरस्कार केरल सरकार द्वारा भारतीय फिल्म निर्देशक जे सी डेनियल द्वारा मलयालम सिनेमा में उनके योगदान के स्मरण में प्रदान किया जाता है।

ब्रिक्स फिल्म समारोह में थिथी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता

प्रथम ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में रामा रेड्डी की कन्नड फिल्म थिथी को केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री वैकय्या नायडु ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया।

- दक्षिण अफ्रीका के थाबो रामेत्सी को फिल्म कलुषि में उनकी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया।
- रूस की यूलिया पेरेसिल्ड को बैटल फॉर सेवास्तोपोल (The Battle for Sevastopol) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- चीन के फिल्मकार जिंकी हुआओ को फिल्म क्सुं झांग (Xuan Zang) के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- समारोह में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका - द्वारा सामना की जा रही सामाजिक चुनौतियों को लेकर भेदभाव, प्रेम, इतिहास जैसे विषयों पर केंद्रित 20 फिल्मों को चित्रित किया।

पद्म भूषण के लिए पहलवान सुशील कुमार के नाम की सिफारिश

सुशील कुमार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के लिए नामांकित किया है।

- महासंघ ने महिला पहलवान अलका तोमर और सुशील के कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता यशवीर सिंह के नाम की सिफारिश पद्मश्री सम्मान के लिए की है।
- सुशील एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में दो व्यक्तिगत पदक जीते हैं। उन्होंने 2008 बीजिंग खेलों में कांस्य, जबकि 2012 लंदन खेलों में स्वर्ण पदक जीता।
- सुशील देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न भी पा चुके हैं।
- सुशील के अलावा सूकर चैंपियन रह चुके पंकज आडवाणी को भी पद्म भूषण दिए जाने की सिफारिश की गई है।

अमेरिका में सुब्रमणियम स्वामी को 'तमिल रत्न' का पुरस्कार

वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य सभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी को भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष और सरकार के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता लाने की कोशिशों के लिए अमेरिका में "तमिल रत्न" पुरस्कार से नवाजा गया है।

- प्रवासी तमिलों की संस्था ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। भाजपा नेता इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं।
- इससे पहले ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान और फिल्म निर्देशक भारती राजा समेत कई हस्तियों को तमिल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

मुंबई की लेखिका मेघना पंत ने एफओएन लघु कथा अवार्ड जीता

लेखिका मेघना पंत को कुमाउं साहित्यिक समारोह के फेलोज ऑफ नेचर (एफओएन) पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पंत को उनकी कहानी 'पीपल ऑफ सन' के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

- प्रतिवर्ष होने वाले इस महोत्सव में यह अवार्ड भारतीय फ्रेंच संस्थान और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की साझेदारी में प्रदान किया जाता है।

लता मंगेशकर को दिया जाएगा 'बंगाविभूषण' पुरस्कार

महान गायिका लता मंगेशकर को बंगाली गीतों में योगदान देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 'बंगाविभूषण' पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह जानकारी दी है।

- तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 2011 से प्रख्यात हस्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए बंगाविभूषण प्रदान करना शुरू किया है।
- डेनस्यूस अमला शंकर इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे।

नोबल पुरस्कार विजेता 'आंग सान सू की' को मानवतावादी पुरस्कार मिला

नोबल पुरस्कार विजेता तथा म्यांमार की राष्ट्रीय नेता 'आंग सान सू की' को मानवतावादी पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया।

- सू की, जिन्हें अप्रैल में म्यांमार सरकार का प्रधान चुना गया, उन्हें 1989 में देश के तानाशाह का विरोध करने के कारण 15 वर्ष हिरासत में रखा गया।

शुभा मुद्गल को ललित अर्पण सम्मान प्रदान किया जाएगा

हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायिका शुभा मुद्गल को इस वर्ष 'ललित अर्पण सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा।

- पद्म श्री से सम्मानित शुभा मुद्गल का जन्म इलाहाबाद में हुआ। वह अपने ख्याल, ठुमरी और दादरा के गायन के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अनेक इंडी-पॉप गीत भी गाये।
- 15वें ललित अर्पण समारोह में कलाकार परमजीत और अर्पिता सिंह को भी सम्मानित किया जाएगा।

एचडीएफसी बैंक बना भारत का सबसे मूल्यवान ब्रैंड: रिपोर्ट

डब्ल्यूपीपी ग्रुप की ब्रैंडज़ टॉप 50 सूची में एचडीएफसी बैंक को लगातार तीसरे साल सबसे मूल्यवान ब्रैंड का खिताब मिला है।

- इससे पहले ब्रैंडज़ टॉप 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रैंड्स की सूची में यह इकलौता भारतीय ब्रैंड था।
- एचडीएफसी बैंक पहले, एयरटेल दूसरे और एसबीआई तीसरे स्थान पर रहा।

उद्योगपति आदि गोदरेज को क्लिंटन ग्लोबल सिटिजन अवॉर्ड

गोदरेज समूह के अध्यक्ष, उद्योगपति आदि गोदरेज को व्यापार और मानव सौहार्द्र के नेतृत्व के लिए 10वें वार्षिक क्लिंटन ग्लोबल सिटिजन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

- इस अवॉर्ड से गोदरेज के नेतृत्व और व्यापार और मानव सौहार्द्र के जरिए गोदरेज समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। इससे पता चलता है कि समावेशी, टिकाऊ व्यापार रणनीति से क्या हासिल किया जा सकता है।
- यह वेस्टर्न यूनिजन के अध्यक्ष और सीईओ हिकमेट इरस्क द्वारा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी बेटी चेलसी की मौजूदगी में न्यूयॉर्क में दिया गया।

हिमाचल-प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन परियोजना पुरस्कार 2015 सम्मान

हिमाचल प्रदेश को 2015 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राज्य में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रदान किया गया है।

- यह पुरस्कार एडीबी वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत राज्य के पर्यटन विभाग को राज्य में आधारभूत संरचना के विकास में सहायता के लिये दिया गया है।
- यह पुरस्कार त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो की समीक्षा बैठक के दौरान पर्यटन आयुक्त मोहन चौहान तथा परियोजना निदेशक मनोज शर्मा को दिया गया।

खेल

ईस्ट बंगाल ने जीता कलकत्ता फुटबॉल लीग का खिताब

देश के प्रतिष्ठित फुटबाल क्लब ईस्ट बंगाल ने फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराते हुए रिकॉर्ड सातवीं बार लगातार कलकत्ता फुटबाल लीग (सीएफएल) खिताब जीत लिया।

- ईस्ट बंगाल ने कल्याणी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराया।
- इससे पहले 1970 से 1975 के बीच लगातार छह बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी ईस्ट बंगाल के ही नाम था।
- ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब कोलकाता, पश्चिम बंगाल आधारित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है।
- ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब 1920 में स्थापित किया गया था।

डेविस कप: स्पेन ने भारत को 5-0 से हराया

मेजबान भारत का डेविस कप विश्व ग्रुप प्ले ऑफ मुकाबले में स्पेन ने 5-0 से सफाया कर दिया।

- आखिरी मैच में राम कुमार रामनाथन, 6-2, 6-2 से सीधे सेटों में डेविड फेरर से हार गए।
- इससे पहले मार्क लोपेज ने सुमित नागल को 6-3, 1-6, 6-3 से पराजित कर स्पेन को 4-0 की बढ़त दे दी।
- इससे पहले, साकेत और रामकुमार अपने पहले एकल मैच हार गए थे।

रियो पैरालम्पिक का समापन

बेहतरीन रोशनी, रंगों और शानदार संगीत के साथ यहां माराकाना स्टेडियम में पैरालम्पिक खेलों को विदाई दी गई। रियो पैरालम्पिक खेलों के समापन समारोह की थीम 'जैव विविधता : हमारी प्रेरणा' थी।

- 159 देशों के प्रतिभागियों के साथ 22 खेलों में 528 पदक इवेंट्स का आयोजन किया गया।
- चीन 239 पदक के साथ शीर्ष पर रहा जबकि इसके बाद ब्रिटेन, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान रहा।
- इस अवसर पर ईरानी साइक्लिस्ट बहमन गोलबार्नेजाद को श्रदांजली दी गई, जिनकी अपने इवेंट के दौरान दुर्घटना में मौत हो गई।
- भारतीय टीम ने पैरालम्पिक खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने दो स्वर्ण पदक सहित कुल चार पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में 43वां स्थान हासिल किया।

सानिया-बारबोरा की जोड़ी बनी पैन पैसिफिक चैंपियन

भारत की सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा ने चीन की चेन लियांग और झाओयुआन यांग की जोड़ी को एकतरफा मुकाबले में 6-1, 6-1 से हराकर पैन पैसिफिक ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला डबल्स खिताब अपने नाम कर लिया।

- नयी जोड़ी बनाने वाली सानिया का चेक खिलाड़ी बारबोरा के साथ यह तीसरा खिताब है। भारतीय-चेक जोड़ी ने इससे पहले गत माह सिनसिनाटी ओपन में मार्टिना हिंगिस और कोको वैंडेवेगे को हराया था।

जापान करेगा 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी

जापान के एड्ची प्रीफेक्चर और उसकी राजधानी नगोया को 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी गई है जो देश के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय खेल कैलेंडर में एक और बड़ी प्रतियोगिता होगी।

- एड्ची प्रीफेक्चर के गवर्नर हिदीकी ओहुमरा और नगोया शहर के मेयर तकाशी कावामुरा में पांचवें एशियाई बीच खेलों की मेजबानी कर रहे दनांग में ओसीए आम सभा की बैठक के दौरान संयुक्त दावेदारी के बाद एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) ने उन्हें मेजबानी सौंपने की आधिकारिक पुष्टि की।

- चार साल में एक बार आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2018 में जकार्ता व पालमबैंग में तथा 2022 में चीन के हैंगझाउ में होंगे।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने रविचंद्रन अश्विन

अश्विन ने अपने 37वें टेस्ट मैच में 200 विकेट पूरे कर लिए। रविचंद्रन वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं और भारतीय गेंदबाजों की सूची में वह इस मामले में पहले स्थान पर हैं।

- यह भारतीय स्पिनर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर क्लेरी ग्रिमेट से पीछे है, जिन्होंने अपने 36वें टेस्ट में ही 200 विकेट पूरे कर लिए थे।

वेलावन ने एशिया जूनियर व्यक्तिगत स्कैश खिलाब जीता

भारत के वेलावन सेंथिलकुमार ने अंडर-19 एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्कैश खिलाब जीता। कुआलालंपुर में खेले गये फाइनल मैच में उन्होंने जॉर्डन के मोहम्मद अल-सराज को हराया।

- इस खिलाब को जीतने वाले वह भारत के दूसरे खिलाड़ी बने. उनसे पहले वर्ष 2010 में रवि दीक्षित ने यह खिलाब जीता था।
- इसके अलावा तुषार साहनी ने अंडर 17 में रजत तथा यश फडते ने अंडर 15 में कांस्य जीता।

रियो पैरालम्पिक: भारत के मारियप्पन को पुरुष वर्ग में स्वर्ण

भारत के ऊंची कूद एथलीट मारियप्पन थांगावेलु ने पैरालम्पिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद टी-42 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

- इसके अलावा मारियप्पन के हमवतन वरुण सिंह भाटी ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया।
- इस स्पर्धा में जहां एक ओर मारियप्पन ने 1.89 मीटर की कूद लगाई। वहीं, भाटी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए 1.86 मीटर की कूद लगाई।
- अमेरिका के सैम ग्रेवे ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता।

भारत की सौ वर्षीय एथलीट को डैश प्रतियोगिता में मिला स्वर्ण पदक

भारत की एथलीट मन कौर ने अमेरिकन मास्टर्स गेम्स में 100 मीटर डैश प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है।

- वैनकूवर में आयोजित इस रेस में सौ वर्षीय मन कौर ने यह दूरी 1 मिनट 30 सेकेंड में समाप्त की।
- चंडीगढ़ की निवासी मन कौर प्रतिस्पर्धा में इस आयु वर्ग की इकलौती महिला खिलाड़ी थीं।

सेरेना विलियम्स ने ग्रैंड स्लेम में रिकॉर्ड सर्वाधिक मैच जीते

दुनिया की नंबर एक महिला खिलाड़ी अमरीका की सेरेना विलियम्स ने ग्रैंड स्लेम में सर्वाधिक मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है।

- सेरेना ने स्वीडन की जोहाना लारसन को आसानी से 6-2, 6-1 से हराकर ग्रैंड स्लेम का अपना 307वां मुकाबला जीतकर इतिहास रचा। सेरेना ने एक घंटे में 47वीं रैंकिंग की लारसन को शिकस्त दी। 34 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी ने मार्टिना नवरातिलोवा के रिकॉर्ड को पछाड़ा।
- यदि सेरेना अपने कैरियर का रिकॉर्ड 7वां यूएस ओपन खिताब जीतने में कामयाब होती हैं तो 23वां ग्रैंड स्लेम खिताब जीतने के साथ ही वह ओपन युग में स्टेफी ग्राफ के रिकॉर्ड को पछाड़ देंगी।

निको रोसबर्ग ने इटैलियन ग्रां प्री 2016 का खिताब जीता

मर्सिडीज के जर्मन चालक निको रोसबर्ग ने साथी लुईस हैमिल्टन को पछाड़कर 4 सितम्बर 2016 को इटैलियन ग्रां प्री फॉर्मूला वन रेस जीता।

- रेस में मर्सिडीज के ही ड्राइवर लुईस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे।
- रोजबर्ग की यह इटली में पहली जीत है जबकि सत्र की यह उनकी सातवीं और कैरियर की 21वीं जीत है।

अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की

भारत को ओलंपिक खेलों में एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने वाले दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने संन्यास लेने की घोषणा की।

- बिंद्रा हाल ही में रियो ओलंपिक में छोटे अंतर से पदक चूक गए थे और रियो में चौथे स्थान पर रहे।
- वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों की 10 मीटर एयर रायफल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने।

सेरेना सर्वाधिक ग्रैंडस्लैम मैच जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी

अमेरिका की महिला खिलाड़ी सेरेना विलियम्स यारोस्लावा श्वेदोवा को हराकर कैरियर का 308वां ग्रैंड स्लेम मुकाबला जीता और वह ओपन एरा में सर्वाधिक ग्रैंडस्लैम मैच जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी बन गईं।

- सेरेना ने कजाखस्तान की यारोस्लावा श्वेदोवा को 6-2, 6-3 से हराकर अपनी जीत दर्ज की।
- इसी के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने का स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने टी 20 में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बनाया

ग्लेन मैक्सवेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने टी 20 के इतिहास में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने महज तीन विकेट गंवाते हुए 263 का विशाल स्कोर बनाया व श्रीलंका को 85 रन से हराया।

- टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मैक्सवेल ने 14 चौके और 9 छक्कों की मदद से 65 गेंदों में धुआंधार 145 रन बनाये।
- इससे पहले सर्वाधिक रनों का विश्व रिकॉर्ड 260/6 स्कोर के साथ श्रीलंका के नाम था जो उसने 2007 में केन्या के खिलाफ बनाया था।
- श्रीलंका 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 178 रन ही बना सका।
- श्रीलंका को टी-20 क्रिकेट की अपनी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। इससे पहले उसे ऑस्ट्रेलिया ने ही मई 2010 में ब्रिजटाउन में 81 रन से हराया था।

दीपा मलिक पैरालिंपिक्स खेलों में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

पैरालिंपिक खेलों में एक महिला ने भारत के लिए इतिहास रचा है। पैरालिंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई हैं।

- भारत की दीपा मलिक ने शॉट-पट F-53 में रजत पदक जीत लिया है। दीपा ने 4.61 मीटर तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रहीं।
- बहरीन की फातेमा निदाम ने 4.76 मीटर की दूरी तय कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। ग्रीस की दिमित्रा कोरकिडा ने 4.28 मीटर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
- इस पदक के साथ ही भारत के इन पैरालिंपिक्स खेलों में कुल तीन पदक हो गए हैं। थंगावेलु मरियप्पन ने भारत को ऊंची कूद में स्वर्ण और वरुण भाटी ने इसी स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाया था।

इंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आर्मी ग्रीन विजेता

एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट, 128वें इंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल में दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में आर्मी ग्रीन ने नैरोका फुटबॉल क्लब को पेनल्टी शूट आउट में 6-5 से हराया।

- खिताबी मुकाबले में निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त 30 मिनट में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में आर्मी ग्रीन ने 6-5 से बाजी मार ली।
- विजेता रहे आर्मी ग्रीन टीम को पुरस्कार राशि के रूप में 45 लाख रुपए प्रदान किये गए।
- उपविजेता रहे नैरोका टीम को 20 लाख रुपए प्रदान किये गए।

- डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना और विश्व में तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है।
- डूरंड कप पहली बार वर्ष 1888 में खेला गया था।

नोवाक जोकोविच को हराकर स्टैन वावरिका ने जीता यूएस ओपन खिताब

यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 6-7 (1-7) 6-4 7-5 6-3 से हराकर स्विस खिलाड़ी स्टैन वावरिका ने खिताब अपने नाम कर लिया। यह उनका तीसरा ग्रैंडस्लैम खिताब है।

- दुनिया की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने यूएस ओपन का महिला एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिसकोवा को 6-3, 4-6, 6-4 से हराया।
- जैमी मरे (ब्रिटेन) एवं ब्रूनो सोआरेस (ब्राजील) ने पाब्लो केरैनो बुस्ता व गुलिर्मो गार्सिया लोपेज को 6-2, 6-3 से हराकर पुरुष युगल का खिताब जीता।
- अमेरिका की बेथानी माटेक सैंड्स और चेक गणराज्य की लुसी सफारोवा ने कैरोलीन गार्सिया और क्रिस्टीना म्लादेनोविच को तीन सेटों के कड़े संघर्ष में 2-6 7-6 6-4 से हराकर यूएस ओपन में महिला युगल का खिताब अपने नाम कर लिया।
- गैरवरीय जोड़ी जर्मनी की लौरा सिगमंड और क्रोएशिया के मैट पेविक ने सातवीं वरीयता प्राप्त कोको वांडेवेघे और राजीव राम की अमेरिकी जोड़ी को फाइनल में सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर US ओपन का मिश्रित युगल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया।

रियो पैरालिंपिक्स में देवेन्द्र ने जीता गोल्ड

भारत के देवेन्द्र झाझरिया ने रियो पैराओलंपिक में भाला फेंक F-46 प्रतियोगिता में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है।

- इससे पहले देवेन्द्र ने 2004 में हुए ऐथेंस ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था। तब उन्होंने 62.15 मीटर दूर जेवलिन थ्रो किया था। इस बार उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 63.7 मीटर दूर जेवलिन फेंका। यह इवेंट ओलंपिक स्टेडियम में हुआ।
- देवेन्द्र के साथ भारत की तरफ से रिकू हुड्डा ने भी भाग लिया था। रिकू इस इवेंट में पांचवे नंबर पर रहे। उन्होंने 54.39 मीटर दूर तक जेवलिन फेंका।
- रियो पैराओलंपिक में अबतक भारत ने चार मेडल जीत लिए हैं। इसमें दो गोल्ड, एक सिल्वर और एक कांस्य पदक शामिल है।
- देवेन्द्र का जन्म राजस्थान में हुआ है। उन्हें 2004 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। वहीं 2012 में उन्हें पद्मश्री भी मिला। वह पहले पैराओलंपियन खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है।
- वह पैराओलंपिक में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं।

सुष्मिता राय को विश्व मार्शल आर्ट्स मास्टरशिप्स में कांस्य

दक्षिण कोरिया के चेंगजू में हुए विश्व मार्शल आर्ट्स मास्टरशिप्स 2016 में भारतीय किकबॉक्सर सुष्मिता राय ने कांस्य पदक जीत लिया है।

- सुष्मिता मास्टरशिप्स 2016 में भारत के 12 सदस्यीय दल की एक हिस्सा थी।
- दक्षिण कोरिया में हुए मार्शल आर्ट्स के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में 87 देशों के 2073 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

भारतीय रेल पुरुष हॉकी टीम ने प्रथम बार एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीता

भारतीय रेल पुरुष हॉकी टीम ने चेन्नई में आयोजित एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2016 को प्रथम बार जीत लिया है। टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय रेल हॉकी टीम ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टीम को 2-1 से हरा दिया।

- फाइनल से पहले भारतीय रेल हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम को 3-2 से हराया।

इंडिया ब्लू ने दलीप ट्रॉफी 2016-17 टूर्नामेंट जीता

गौतम गंभीर की कप्तानी में खेल रही इंडिया ब्लू ने ग्रेटर नोएडा में खेले गये दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब जीता।

- फाइनल मुकाबले में, इंडिया ब्लू ने इंडिया रेड को 355 रनों के बड़े अन्तराल से हराया। इंडिया रेड की कप्तानी युवराज सिंह ने की।
- रविन्द्र जडेजा ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए एवं निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने पहली पारी में भी पांच विकेट लिए थे।
- चेतेश्वर पुजारा प्लेयर ऑफ़ द मैच घोषित किये गये।

बधिर निशानेबाज प्रियेशा देशमुख ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता

भारतीय बधिर निशानेबाज प्रियेशा देशमुख ने विश्व बधिर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। यह उनके द्वारा खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था।

- इस प्रतियोगिता का आयोजन रूस के कज़ान में 7 सितंबर से 15 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया था।
- देशमुख ने 10 मीटर राइफल श्रेणी में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 180.4 अंक अर्जित करके यह पदक हासिल किया।
- यूक्रेन की स्वेतलाना यात्सेंको ने स्वर्ण पदक जीता जबकि सर्बिया की गोर्दाना मिकोविक ने रजत पदक जीता।

आईसीसी ने पाक को टेस्ट गदा सौंपी

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की टेस्ट टीम रैंकिंग के 2003 में शुरू होने के बाद पहली बार शीर्ष पर पहुंचने के लिए आईसीसी ने पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक को टेस्ट चैम्पियनशिप गदा सौंपी।

- आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड रिचर्डसन ने गद्दाफी स्टेडियम में मिसबाह हो गदा सौंपा और पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान ने कहा कि यह शानदार है कि गदा सौंपने के कार्यक्रम का आयोजन इस मैदान पर किया गया।

500 टेस्ट खेलने वाला चौथा देश बनेगा भारत

भारत 22 सितंबर 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में उतरने के साथ ही 500 टेस्ट खेलने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया।

- क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड के नाम सर्वाधिक 976 टेस्ट खेलने का रिकार्ड है।
- भारत व इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया व वेस्टइंडीज भी 500 टेस्ट खेल चुके हैं।
- इस अवसर पर विज्डन मैगजीन ने पूर्व टेस्ट कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को ऑल टाइम भारतीय एकादश का कप्तान घोषित किया।

रितु रानी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से लिया संन्यास

भारत की पूर्व महिला हॉकी कप्तान रितु रानी ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लिया। वह रियो ओलिंपिक जाने वाली भारतीय टीम में शामिल नहीं किए जाने के बाद काफी नाराज थीं।

- रितु को रियो ओलिंपिक की टीम से 'रवैये' संबंधित कारण का हवाला देते हुए विवादास्पद तरीके से बाहर किया गया था। हालांकि उन्हें भोपाल में शुरू हुए राष्ट्रीय शिविर के लिये 29 संभावितों में शामिल किया गया था।
- लेकिन यह 24 वर्षीय मिडफील्डर ओलिंपिक टीम से बाहर किये जाने से अभी तक नाराज है और उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय कैरियर खत्म करने का फैसला किया।

बीपीसीएल ने ओबएदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट जीता

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने भोपाल में आयोजित ओबएदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट कप जीता।

- बीपीसीएल ने मैच में रेलवे को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता।
- मैच का निर्णय पेनल्टी शूट-आउट द्वारा किया गया क्योंकि दोनों टीमों अंत में एक-एक गोल से बराबरी पर थीं।

- विजेता टीम को 51 लाख रुपये बतौर इनामी राशि दिए गये।

निधन

अमेरिका नाटककार एडवर्ड एल्बी का निधन

हू इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वूल्फ? के लेखक अमेरिकी नाटककार एडवर्ड एल्बी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

- एल्बी के सहायक ने कहा कि उनका न्यूयार्क के पास लांग आईलैंड पर अपने घर में निधन हो गया। मौत का कोई कारण नहीं बताया गया।
- तीन बार पुलित्जर पुरस्कार विजेता एल्बी यकीनन आर्थर मिलर और ऑगस्ट विल्सन की मौत के बाद अमेरिका के सबसे बेहतरीन नाटककार थे।

इटली के पूर्व राष्ट्रपति कार्लो का निधन

इटली की सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, कार्लो एजेगिलो का रोम के एक अस्पताल में निधन हुआ। वह लंबे समय से बीमार थे। कार्लो ने 1999 से 2006 तक इटली के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला और यूरोपीय संघ के (ईयू) के एकल मुद्रा बाजार में देश को शामिल करने में अहम भूमिका निभाई।

- इटली के राष्ट्रपति पद को संभालने से पहले कार्लो ने 1979 से 1993 तक देश के सेंट्रल बैंक के प्रमुख के तौर पर भी सेवा दी। इसके बाद उन्होंने 1993 से 1994 तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार भी संभाला और 1996 से 1999 तक वित्त मंत्री भी रहे।

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करिमोव का निधन

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करिमोव का निधन हो गया। 78 वर्षीय करिमोव को ब्रेन हेमरेज हो गया था। करिमोव खुद को उग्र इस्लाम से बचाने वाले के रूप में देखते थे।

- उनके विरोधियों का मानना है कि वे निर्दयी तानाशाह थे जिन्होंने सत्ता में रहने के लिए यातनाओं का सहारा लिया।
- सोवियत संघ से देश की आजादी के बाद से अब तक वह देश के इकलौते राष्ट्रपति थे।

ऑस्ट्रेलिया के सबसे उम्रदराज पूर्व खिलाड़ी का निधन

ऑस्ट्रेलिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट खिलाड़ी पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज लेन मैडोक्स का निधन हो गया है। वह 90 वर्ष के थे।

- उन्होंने 1950 के दशक में अपने छोटे करियर में सात टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया। वे 1977 में इंग्लैंड गई टीम के मैनेजर थे।

भाजपा नेता आरिफ बेग का हार्ट अटैक से निधन

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग(81) का भोपाल में हार्ट अटैक से निधन हो गया।

- वे मोरारजी देसाई सरकार (77-79 तक) में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री रहे।
- वे 1989 में बैतूल लोकसभा से भी चुने गए थे।

वर्ल्ड के सबसे उम्रदराज लिंडसे टकेट क्रिकेटर का निधन

दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर लिंडसे टकेट का ब्लोमफोनटेन में निधन हो गया। वह 97 साल के थे।

- टकेट ने 1947 से 1949 के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 9 टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया।
- अब दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर दक्षिण अफ्रीका के ही ऑलराउंडर जानी वाटकिंस बन गए हैं जो 93 वर्ष के हैं।
- टकेट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सालों में दक्षिण अफ्रीका के फास्ट बॉलिंग आक्रमण भी रीड थे।
- आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 1947 में नाटिंगहम के ट्रेटब्रिज में टेस्ट डेब्यू करते हुए पहली पारी में 68 रन देकर पांच विकेट चटकाए।
- उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 19 विकेट चटकाए जिसमें दो बार पारी में पांच विकेट भी शामिल रहे।

मशहूर नाटककार रेवती शरण शर्मा का निधन

हिन्दी और उर्दू के प्रसिद्ध नाटककार रेवती शरण शर्मा का निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे।

- उन्हें नाट्य लेखन के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था।
- उन्हें गालिब सम्मान तथा साहित्य कला परिषद् के पुरस्कार से भी नवाजा गया था।

महान गोल्फ खिलाड़ी अर्नाल्ड पामर का निधन

महान गोल्फ खिलाड़ी अर्नाल्ड पामर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस बात की जानकारी अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन ने दी है।

- गोल्फ एसोसिएशन ने ट्वीट कर अर्नाल्ड की मौत पर दुख जताते हुए लिखा कि, 'गोल्फ के महान एंबेसडर का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।

एफसीएटी के अध्यक्ष महाजन का निधन

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश तथा फिल्म प्रमाणन अपीलिय न्यायाधिकरण(एफसीएटी) के अध्यक्ष एस के महाजन का निधन हो गया।

- उनका लोधी रोड स्थित श्मशान, जहां सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर सहित गणमान्य व्यक्ति व कई कानूनी दिग्गज मौजूद थे, में अंतिम संस्कार किया गया।

इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेस का निधन

इजरायल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेस का निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे।

- पेरेस दो बार देश के प्रधानमंत्री और 2007 से 2014 तक औपचारिक भूमिका में राष्ट्रपति रहे।
- ओस्लो समझौते में अपनी भूमिका के लिए 1994 में उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता।

पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैक्स वॉकर का निधन

पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैक्स वॉकर का ऑस्ट्रेलिया स्थित मेलबर्न में निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे।

- वॉकर ने 1972-77 में 34 टेस्ट खेले जिनमें उन्होंने 27.47 के औसत से 138 विकेट लिये थे।

केन हिग्स का 79 वर्ष की उम्र में निधन

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केनेथ हिग्स का 7 सितंबर को 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

- दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, हिग्स ने 1965 से 1968 के बीच अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 15 टेस्ट में 71 विकेट लिए।
- हिग्स ने काउंटी क्रिकेट में लंकाशायर और लीसेस्टरशायर का प्रतिनिधित्व किया और वे 1000 से अधिक प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले दस गेंदबाजों में शुमार थे।

कर्टिस हैसन का 71 वर्ष की आयु में निधन

हॉलीवुड निर्देशक कर्टिस हैसन को उनके हॉलीवुड हिल्स स्थित घर में मृत पाया गया। वह 71 साल के थे।

- हैसन ने हालिया वर्षों में अपने काम से संन्यास ले लिया था। बताया गया है कि वह अल्जाइमर से पीड़ित थे।
- हैसन ने ऑस्कर विजेता फिल्म 'एल. ए कॉन्फिडेंशियल' का निर्देशन किया था।
- हैसन को 'द रिवर वाइल्ड', 'वंडर ब्वॉयज' और 'इन हर शूज' जैसी बेहतरीन फिल्मों के निर्देशन का श्रेय जाता है।

पुस्तकें

उत्तराखंड के राज्यपाल ने किया 'शांति की तलाश में जिंदगी' नामक पुस्तक का विमोचन

उत्तराखंड में राजभवन में राज्यपाल केके पॉल ने हिंदी दिवस के मौके पर राधिका नागरथ की पुस्तक 'शांति की तलाश में जिंदगी' का विमोचन किया।

- राज्यपाल ने कहा कि पुस्तक, लेखिका के जीवन और लोगों के गहन अध्ययन का परिणाम है जिसमें पश्चिमी सभ्यता और सतही मूल्यों के पीछे भागने के कारण उपज रही अशांति से जीवन को खोखला होने से बचने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

अरुणाचल के आदिवासियों पर लिखी किताब ने जीता प्रतिष्ठित ब्रिटिश अवार्ड

अरुणाचल प्रदेश के अपातानी आदिवासियों पर लिखी गई किताब ने ब्रिटेन में इस साल का प्रतिष्ठित एमएम बेनेट्स अवार्ड जीता है। अवार्ड के लिए ऐतिहासिक कहानी पर आधारित किताब को चुना गया है।

- ऑक्सफोर्ड के एचएनएस कांग्रेस में आयोजित समारोह में स्टुअर्ट ब्लैकबर्न को उनके उपन्यास 'इंटू द हिडेन बैली' के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- स्पीकिंग टाइगर की ओर से प्रकाशित यह किताब भारत में ब्रिटिश काल के अनछुए इतिहास पर रोशनी डालती है।
- इसमें दो कहानियों के साथ अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच टकराव को दर्शाया गया है। इसमें एक कहानी ब्रिटिश अधिकारी की है तो दूसरी एक आदिवासी की है।

क्रिस गेल की आत्मकथा 'सिक्स मशीन' भारत में रिलीज

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज एवं हरफनमौला क्रिकेटर क्रिस गेल ने अपनी आत्मकथा 'सिक्स मशीन' का लोकार्पण किया।

- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने गेल की किताब का विमोचन किया। इस किताब को वाइकिंग-पेंग्विन यूके ने प्रकाशित किया है।
- क्रिस्टोफर हेनरी "क्रिस" गेल जमैका के क्रिकेटर हैं जो वेस्टइंडीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं।
- सीमित ओवरों के क्रिकेट में सबसे शक्तिशाली बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले गेल ने खेल के सभी प्रारूपों में कई रिकॉर्ड स्थापित किये हैं।

मलेशियाई राजदूत ने साई बाबा पर अनुदित पुस्तक का विमोचन किया

भारत में मलेशिया के कौंसल जनरल एल्दीन हुसैनी मुहम्मद हाशिम ने साई बाबा के जीवन पर आधारित अनुदित पुस्तक 'साई चरित्र ग्रंथ' का विमोचन किया।

- पुस्तक का मलय में अनुवाद 'आई लव साई' नामक सोशियल आउटफिट ने किया है।

उपराष्ट्रपति की पुस्तक का विमोचन

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 23 सितम्बर को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा लिखित पुस्तक 'सिटीजन एंड सोसायटी' का विमोचन किया।

- प्रणब मुखर्जी ने को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में पुस्तक का विमोचन किया।

